



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2013/पौष 14, 1934

No. 43]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2013/PAUSA 14, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2013

का.आ. 44(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1207(अ), दिनांक 25-05-2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के 155.000 कि.मी. से 172.900 कि.मी. (सतना-बेला खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन 8 जून, 2012 को "दैनिक जागरण, रीवा संस्करण" और 11 जून, 2012 को "दैनिक भास्कर, सतना संस्करण" में प्रकाशित किया गया है;

और जबकि आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है तथा आपत्तियों को अनुज्ञात कर दिया है;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए;

और यह भी कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के सतना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कि.मी. 155.000 से 172.900 कि.मी. तक (सतना-बेला खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र०	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर.) में	भू-स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सतना	रघुराज नगर	सरिसताल	79/2	निजी	पार	0.035	पराग पिता वीरभगत साहू
				78/1	निजी	असिंचित	0.081	रुचि इन फाक्ट कचर लिमिटेड सूर्या आपटमेंट 5/2 साउथ तुकोगंज
				167/1	निजी	असिंचित	0.073	पराग पिता वीरभगत साहू
				167/2	निजी	असिंचित	0.069	शिल्पर टायर फाइनेन्स एन्ड लेसिंग प्रा० लिमिटेड सतना द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर रामेश सिंह पिता दशरथ सिंह
				168/2	निजी	असिंचित	0.005	शिल्पर टायर फाइनेन्स एन्ड लेसिंग प्रा० लिमिटेड सतना द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर रामेश सिंह पिता दशरथ सिंह
				169/1	निजी	पार	0.055	नबल पिता रमेश अग्रवाल
				129	निजी	बगीचा	0.228	रामदेवेन्द्र सिंह पिता रामरामेन्द्र सिंह
				128	निजी	पार	0.027	रामदेवेन्द्र सिंह पिता रामरामेन्द्र सिंह
				147/1	निजी	पार	0.016	श्रीमती सोनिया पत्नी हरेन्द्र जोली
				147/2	निजी	पार	0.081	यशपाल योगेन्द्र कुमार पिता हरबंश लाल
				165/1	निजी	पार	0.160	नितिन पिता नरेश अग्रवाल
				164/1	निजी	सिंचित	0.060	नबल पिता नरेश अग्रवाल
				164/2	निजी	सिंचित	0.061	नितिन पिता नरेश अग्रवाल
				163/1	निजी	असिंचित	0.132	नबल पिता नरेश अग्रवाल
				162/1	निजी	असिंचित	0.044	नबल पिता नरेश अग्रवाल
				162/2	निजी	असिंचित	0.044	नितिन पिता नरेश अग्रवाल
				161/1	निजी	पार	0.040	नबल पिता नरेश अग्रवाल

			181/2	निजी	पार	0.041	लिसिंग पिता नरेश अग्रवाल
			158	निजी	असिंचित	0.493	कैलास नाथ पिता रामचन्द्र गुप्ता
			188	निजी	पार	0.015	कैलास नाथ पिता रामचन्द्र गुप्ता
			188/1/1	निजी	असिंचित	0.184	दिवाकर लाल जी पिता जगदीश प्रसाद ब्रा.
			188/1/2	निजी	असिंचित	0.185	गगनन्द्र प्रताप सिंह पिता रामप्रताप सिंह, उमेश पिता उदयशरण चतुर्वेदी, विनय पिता रामशिरोमणि शुक्ला
			187/2	निजी	असिंचित	0.184	विपिन कुमार पिता दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी
			272/1	निजी	पार	0.028	दिवाकर लाल जी पिता जगदीश प्रसाद ब्रा.
			272/2	निजी	पार	0.029	अजय कुमार पिता दिवाकर चतुर्वेदी
			270/1/1	निजी	असिंचित	0.173	दिवाकर लाल जी पिता जगदीश प्रसाद ब्रा.
			270/1/1ख/1	निजी	असिंचित	0.174	रामनिवास पिता राममद्राचार्य ब्रा० गजट से रकवा जादा है।
			270/1/1ख/2	निजी	असिंचित	0.134	राममद्राचार्य पिता माधवाचार्य ब्रा०
			269	निजी	असिंचित	0.024	प्रीती डेवेलबर्मेट एन्ड लिसिंग प्रा० लि० 25 इन्डस्ट्रियल स्टेट राममन्दिर रोड गोरेगांव मुम्बई
	इटीरा		111	निजी	पार	0.032	श्रीमती ऊषा सिंह पुत्री चन्द्रभूषण सिंह अरुण प्रताप सिंह अजीत सिंह हरी सिंह पिता चन्द्रभूषण सिंह
			110	निजी	असिंचित	0.405	श्रीमती ऊषा सिंह पुत्री चन्द्रभूषण सिंह अरुण प्रताप सिंह अजीत सिंह हरी सिंह पिता चन्द्रभूषण सिंह
			116	निजी	पार	0.172	श्रीमती ऊषा सिंह पुत्री चन्द्रभूषण सिंह अरुण प्रताप सिंह अजीत सिंह हरी सिंह पिता चन्द्रभूषण सिंह
			109/1	निजी	असिंचित	0.023	सुरेश प्रसाद पिता बाबूलाल ब्रा०
			109/2	निजी	असिंचित	0.023	जय प्रकाश पिता बाबूलाल ब्रा०
			109/3	निजी	असिंचित	0.022	रमेश प्रसाद पिता बाबूलाल ब्रा०
			125	निजी	पार	0.485	श्रीमती ऊषा सिंह पुत्री चन्द्रभूषण सिंह अरुण प्रताप सिंह अजीत सिंह हरी सिंह पिता चन्द्रभूषण सिंह

			100/1/क	निजी	असिंचित	0.046	गंगा प्रसाद विष्णु प्रसाद पिता सुन्दर लाल बारी
			100/1/ख /1	निजी	असिंचित	0.046	रामसजीवन पिता कालू बारी
			101/1/ख /2	निजी	असिंचित	0.106	रामसजीवन पिता कालू बारी
			99	निजी	असिंचित	0.405	विशम्भर दयाल पिता कालूराम ब्रा0
			11/1/1क /1क/1	निजी	असिंचित	0.152	जितेन्द्र कुमार जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन व अरविन्द कुमार जैन पिता केशव राम जैन
			11/1/1क /1क/2	निजी	असिंचित	0.022	महेन्द्र कुमार जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन
			11/1ख/1	निजी	असिंचित	0.032	सुरेश कुमार पिता बुद्धलाल सोनकर
			12/1क/1क	निजी	पार	0.012	जितेन्द्र कुमार जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन व अरविन्द कुमार जैन पिता केशव राम जैन
			12/1क/ 1ख	निजी	पार	0.008	महेन्द्र कुमार जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन
			13/1क/1क	निजी	असिंचित	0.761	जितेन्द्र कुमार जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन व अरविन्द कुमार जैन पिता केशव राम जैन
			14/1क /1क	निजी	पार	0.012	जितेन्द्र कुमार जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन व अरविन्द कुमार जैन पिता केशव राम जैन
			14/1क /1ख	निजी	पार	0.012	महेन्द्र कुमार जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन
			3	निजी	बगीचा	0.405	निति डबलवमेंट एन्ड निसिंग प्रा0 लिमिटेड 25बखरिया इंडस्ट्रीय स्टेट रागणन्दिर रोड गोखर्गेव पश्चिम मुम्बई जयकीर्ति स्टेट एन्ड रिया प्रा0 लिमिटेड दुर्गा नगर विखरौली लिग्स रोड नबस्कार बिल्डिंग के सामने जागेश्वरी पूर्वी मुम्बई
		गिदुशी	105/1, 106/1	निजी	असिंचित	0.200	मुरामकली बेवा शोभनाथ तिवारी राजेन्द्रकुमार तिवारी पिता शोभानाथ तिवारी जाति ब्राह्मण
			105/4, 106/4	निजी	असिंचित	0.080	शुशील कुमार पिता बलवन्त राम त्रिपाठी
			105/5, 106/5	निजी	असिंचित	0.100	दिलीप कुमार पिता रामानुज चतुर्वेदी
			107/2/क	निजी	असिंचित	0.100	नरेन्द्रकुमार तनय मुक्तीलाल जैन

				107/2/ख	निजी	असिंचित	0.099	महेश मलिक तनय गोपालदास मलिक सा. कृष्णनगर सतना व दीपक चन्दानी तनय रामचन्द्र चंदानी सा. गनपत मार्ग सतना सुरेश केशरवानी तनय शिवप्रसाद केशरवानी सा.चाणक्यपुरी कालोनी सतना
				107/3/1	निजी	असिंचित	0.025	श्रीमती कुशुम पत्नी इन्द्रपाल पटेल
				107/3/2	निजी	असिंचित	0.013	आनंद कुमार तनय रामसिया पटेल
				107/3/3	निजी	असिंचित	0.018	प्रमोदकुमार शुक्ला तनय कामता प्रसाद शुक्ला जाति ब्राम्हण
				107/3/4	निजी	असिंचित	0.017	प्रदीप कुमार पाठक तनय प्रमोद कुमार पाठक जाति ब्राम्हण
				108/1	निजी	असिंचित	0.080	श्रीमती कुशुम पत्नी इन्द्रपाल पटेल
				109/2	निजी	असिंचित	0.010	श्रीमती कुशुम पत्नी इन्द्रपाल पटेल
				112/क	निजी	सिंचित	1.200	छकौडि तनय शीतला प्रसाद जाति ब्राम्हण
				113	निजी	असिंचित	0.056	छकौडि तनय शीतला प्रसाद जाति ब्राम्हण
				114/1/क/2	निजी	असिंचित	0.100	गुलाम दस्तगीर पिता गुलाम रसूल
				114/1/क/3/1	निजी	असिंचित	0.060	श्रीमती सुप्रिया चौदहा पत्नी आशीष कुमार चौदहा
				114/1/ख	निजी	असिंचित	0.200	डॉ. भारतेन्दु पटेल पिता सी. एल. पटेल
				114/1/क/3/1/1	निजी	असिंचित	0.100	तरुण कुमार तनय लक्ष्मी प्रसाद अग्निहोत्री संदीप कुमार तनय प्रेमलाल गर्ग, कैलाशनाथ तनय मोतीलाल सिधारी, अन्नारि कुमार तनय रामरुद्र मिश्रा
				114/1/क/3/1/2	निजी	असिंचित	0.100	श्रीमती राधा शर्मा पत्नी रवि प्रकाश शर्मा
				115/1/ख	निजी	असिंचित	0.033	डॉ. भारतेन्दु पटेल पिता सी. एल. पटेल
				117	निजी	असिंचित	0.084	देवराज तनय शिवदयाल जाति लढ़िया
				116	निजी	सिंचित	0.275	देवराज तनय शिवदयाल जाति लढ़िया
				118/क	निजी	असिंचित	0.174	श्रीमती सरला पत्नी राजेन्द्र गौतम
				136	निजी	सिंचित	1.418	लालहरि सिंह तनय लालचन्द्रभूषण प्रताप जाति सिंह
				123	निजी	सिंचित	0.772	लालहरि सिंह तनय लालचन्द्रभूषण प्रताप जाति सिंह

			125	निजी	सिंचित	0.376	लालहरि सिंह तनय लालचन्द्रभूषण प्रताप जति सिंह
			124	निजी	सिंचित	0.034	लालहरि सिंह तनय लालचन्द्रभूषण प्रताप जति सिंह
		अमौघा	15	निजी	सिंचित	0.313	बद्री सिंह प्रद्युम्न सिंह उत्तम सिंह पिता शिवचरण सिंह
			15/843	निजी	सिंचित		बद्री सिंह प्रद्युम्न सिंह उत्तम सिंह पिता शिवचरण सिंह
			16	निजी	सिंचित	0.919	बद्री सिंह प्रद्युम्न सिंह उत्तम सिंह पिता शिवचरण सिंह
			17	निजी	असिंचित	0.184	जुगलकिशोर मिशरा आलोक कुमार मिश्रा पिता जगदीश प्रसाद मिश्रा
			18	निजी	असिंचित	0.040	दिनेश प्रसाद तनय सुन्दरलाल जाति शर्मा
			14	निजी	असिंचित	0.010	बद्रीसिंह प्रद्युम्न सिंह उत्तमसिंह रविराज सिंह पिता शिवचरण सिंह जाति सिंह
			11	निजी	रास्ता	0.391	युवराज कुमार तनय हीरालाल मिश्रा
			10	निजी	असिंचित	0.139	जगदीश कुम्हार पिता भोला कुम्हार
			19/1	निजी	असिंचित	0.174	आशुतोष द्विवेदी तनय लखनलाल द्विवेदी जाति ब्राह्मण
			5	निजी	असिंचित	0.033	मुनेन्द्र प्रसाद पिता गोपिका प्रसाद नावा0 बली0 सख माता शीला देवी
			137/2/1	निजी	सिंचित	0.061	सतेन्द्र कुमार पिता रामायण पाण्डेय
			138/1	निजी	सिंचित	0.061	श्याम लाल सुन्दर लाल पिता परदेसिया चमार संतोष कुमार राजकुमार मिथिलेश पिता महगुआ चमार
			138/2	निजी	सिंचित	0.221	सतेन्द्र कुमार पिता रामायण पाण्डेय
			139/1	निजी	सिंचित	0.037	श्याम लाल सुन्दर लाल पिता परदेसिया चमार
			139/2	निजी	सिंचित	0.044	सतेन्द्र कुमार पिता रामायण पाण्डेय
			142/1	निजी	असिंचित	0.335	गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार
			142/2	निजी	असिंचित		गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार
			142/3	निजी	असिंचित		गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार
			142/4	निजी	असिंचित		गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार
			142/5	निजी	असिंचित		गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार
			142/6	निजी	असिंचित		गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार

				143/1	निजी	असिंचित	0.121	गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार
				143/2/2	निजी	असिंचित	0.040	श्रीमती चतुरेश कुमारी यादव पत्नी रामगरीब यादव
				141/1	निजी	असिंचित	0.050	श्रीमती उर्मिला बजाज पत्नी मिथलेश बजाज
				141/2	निजी	असिंचित	0.150	राजकुमार अग्रवाल पिता गणेश प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल
				141/3/1	निजी	असिंचित	0.100	शत्रुघ्न सिंह पिता लालमणि सिंह
				141/4/1	निजी	असिंचित	0.100	श्रीमती मंजू यादव पत्नी उमेश यादव श्रीमती उपासना सिंह पुत्री महेंद्र सिंह सेंगर
				144/5/1	निजी	असिंचित	0.012	गुलजारीलाल तनय भोला कुम्हार जाति कुम्हार
				144/6/1	निजी	असिंचित	0.012	श्रीमती मंजू यादव पत्नी उमेश यादव श्रीमती उपासना सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह सेंगर
				144/1	निजी	असिंचित	0.045	श्रीमती चतुरेश कुमारी यादव पत्नी रामगरीब यादव
				144/4/2	निजी	असिंचित	0.008	श्रीमती उर्मिला बजाज पत्नी मिथलेश बजाज
				144/5/2	निजी	असिंचित	0.019	राजकुमार अग्रवाल पिता गणेश प्रसाद अग्रवाल
				146/1/3/1/3	निजी	असिंचित	0.026	नरेन्द्रकुमार कुमार विनय कुमार पिता रामपति
				146/1/3	निजी	असिंचित	0.020	श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी उदयमान सिंह
				146/2	निजी	असिंचित	0.202	गुलजारी लाल पिता भोला कुम्हार
				146/3/1	निजी	असिंचित	0.100	जियेय-सिंह पिता दिनेश सिंह
				146/5/2/2	निजी	असिंचित	0.017	श्रीमती सरोज सिंह पत्नी अशोक सिंह
				146/5/2/4	निजी	असिंचित	0.049	परसुराम पिता त्रिलोकी प्रसाद सुक्ला
				146/1/3/1/5	निजी	असिंचित	0.024	श्रीमती मनीषा परणहा पत्नी अश्वनी परणहा
				146/1/2/1/3	निजी	असिंचित	0.012	राजबहोरन पिता मनोरथ सिंह
				148/1	निजी	असिंचित	0.083	राजकुमार पिता शारदा सिंह
				149/1/1	निजी	असिंचित	0.264	राजकुमार पिता शारदा सिंह
				149/1/2	निजी	असिंचित	0.061	श्रीमती इन्द्रवाला पत्नी घनश्याम दास
				152/2	निजी	असिंचित	0.045	राजकुमार सिंह पिता शारदा सिंह
				152/3	निजी	असिंचित	0.045	राकेश कुमार पिता रामकृष्ण पटेल

खेरा	41	निजी	सिंचित	0.040	रम्पत पुत्री रामाधार दाहिया
	42/1/1	निजी	पार असिंचित	0.055	रम्पत पुत्री रामाधार दाहिया
	42/1/2	निजी	पार असिंचित	0.049	मंगल प्रसाद तनय कामता प्रसाद प्रजापति जाति कुम्हार
	45	निजी	सिंचित	0.622	रम्पत पुत्री रामाधार दाहिया
	43	निजी	सिंचित	0.235	रम्पत पुत्री रामाधार दाहिया
	44/1/1	निजी	सिंचित	0.300	प्रदीप कुमार पिता ऋषिकेश अग्निहोत्री
	44/2	निजी	सिंचित ट्यूबवेल-1		मंगल प्रसाद तनय कामता प्रसाद प्रजापति जाति कुम्हार
	37/1	निजी	पार असिंचित	0.153	कुलदीप नावा. वली पिता प्रदीप कुमार अग्निहोत्री
	37/2	निजी	पार असिंचित		उदित नावा. वली पिता प्रदीप कुमार अग्निहोत्री
	40/1	निजी	सिंचित	0.249	रुकमणी देवी बेवा प्रताप सिंह रामलखन सिंह शिवलखन सिंह, शिवरतन सिंह पिता प्रताप सिंह सा. मझगवां
	36/151	निजी	सिंचित	0.662	उदित नावा. वली पिता प्रदीप कुमार अग्निहोत्री
	36/1/1	निजी	सिंचित	0.042	रविकुमार कुमार पिता रामप्रसाद अग्निहोत्री
	36/2/1	निजी	सिंचित	0.904	कुलदीप नावा. वली पिता प्रदीप कुमार अग्निहोत्री
	36/2/2	निजी	सिंचित		उदित नावा. वली पिता प्रदीप कुमार अग्निहोत्री
	35/1	निजी	पार असिंचित	0.060	रविकुमार कुमार पिता रामप्रसाद अग्निहोत्री
	5/1	निजी	पार असिंचित	0.056	ओमप्रकाश पिता जगन्नाथ अग्निहोत्री
	4	निजी	सिंचित	0.043	ओमप्रकाश पिता जगन्नाथ अग्निहोत्री
	6/1/1ख	निजी	सिंचित	0.279	आशोक सिंह पिता बंशधारी सिंह राजेन्द्र नगर सतना
	6/1/2 ख	निजी	सिंचित		आशोक सिंह पिता बंशधारी सिंह राजेन्द्र नगर सतना
	6/2	निजी	सिंचित	1.637	सुनील कुमार पिता रामकिशोर श्रीमती कमलेश पत्नी अनिलकुमार अश्वनी पि. अनिल कुमार नावा. वली. सर. माता श्रीमती कमलेश व श्रीमती शशिकला पत्नी राजेश कुमार अमित कुमार आकाश नावा. पि. राजेश कुमार वली. सर. माता श्रीमती शशि ब्राम्हण

			6/3	निजी	सिंचित		सुनील कुमार पिता रामकिशोर ब्राम्हण
			7/1	निजी	पार असिंचित	0.095	सुनील कुमार पिता रामकिशोर श्रीमती कमलेश पत्नी अनिलकुमार अश्वनी पि.अनिल कुमार नावा.वली.सर. माता श्रीमती कमलेश व श्रीमती शशिकला पत्नी राजेश कुमार अमित कुमार आकाश नावा.पि.राजेश कुमार वली.सर. माता श्रीमती शशि ब्राम्हण
			7/2	निजी	पार असिंचित		सुनील कुमार पिता रामकिशोर ब्राम्हण
			8	निजी	सिंचित	0.090	संतोश सिंह पिता शिवकुमार सिंह
			18	निजी	सिंचित	0.020	बद्रीसिंह प्रद्युम्न सिंह उत्तमसिंह रविराज सिंह पिता शिवचरण सिंह जाति सिंह
			17	निजी	सिंचित	0.120	बद्रीसिंह प्रद्युम्न सिंह उत्तमसिंह रविराज सिंह पिता शिवचरण सिंह जाति सिंह
			19	निजी	सिंचित	0.140	सुनील कुमार पिता रामकिशोर श्रीमती कमलेश पत्नी अनिलकुमार अश्वनी पि.अनिल कुमार नावा.वली.सर. माता श्रीमती कमलेश व श्रीमती शशिकला पत्नी राजेश कुमार अमित कुमार आकाश नावा.पि.राजेश कुमार वली.सर. माता श्रीमती शशि ब्राम्हण
			9/1/क	निजी	सिंचित नलकूप 1	0.738	बद्रीसिंह प्रद्युम्न सिंह उत्तमसिंह रविराज सिंह पिता शिवचरण सिंह जाति सिंह
		बगहा	233/2/3	निजी	सिंचित	0.013	श्रीमती सीमा पत्नी सुरेश बड़ेरिया
			235/1	निजी	सिंचित	0.506	श्रीमती शीला तिवारी पुत्री किवछेदक व रेनू पत्नी राजेश तिवारी पुत्री रामनिवास शुक्ला
			242	निजी	सिंचित	1.160	राजबहादुर सिंह पिता रामहित सिंह
			241/3	निजी	सिंचित	0.901	राजबहादुर सिंह पिता रामहित सिंह
			249/1/1	निजी	मैंड़	0.030	बीरेन्द्र सिंह पिता राघुराज सिंह
			249/2	निजी	मैंड़	0.030	रामाश्रय सिंह पिता रामहित सिंह
			248/1/1	निजी	सिंचित	0.600	बीरेन्द्र सिंह पिता राघुराज सिंह
			248/1/2	निजी	सिंचित	0.020	संतोश सिंह तनय राघुराज सिंह जाति सिंह
			248/2	निजी	सिंचित	0.400	रामाश्रय सिंह पिता रामहित सिंह

			248/986/1	निजी	सिंचित	1.056	संतोश सिंह तनय रघुराज सिंह जाति सिंह
			268/1	निजी	प्लाट	0.001	मोतीलाल पिता रघुनाथ प्रसाद जाति ब्राम्हण
			268/2	निजी	प्लाट	0.003	श्रीमती सुनीता पत्नी बृजेन्द्रनाथ तिवारी जाति ब्राम्हण
			268/3	निजी	प्लाट	0.035	श्रीमती अर्चना त्रिपाठी पत्नी राजीवलोचन त्रिपाठी जाति ब्राम्हण
			268/6	निजी	प्लाट	0.033	श्रीमती दीपा पत्नी धनेश कुमार त्रिपाठी
			268/7	निजी	प्लाट	0.008	रघुनन्दन पिता शिवप्रसाद यादव
			268/8	निजी	प्लाट	0.001	संगीता पत्नी एस0 एल0 यादव
			268/9	निजी	प्लाट	0.012	श्रीमती शकुन्तला पत्नी चन्द्रदास यादव
			267/1	निजी	प्लाट	0.061	वीरेन्द्रकुमार तनय मुन्नालाल जाति त्रिपाठी
			267/2	निजी	प्लाट	0.092	श्रीमती शांती पत्नी रामकुशल सोनी जाति सोनार
			267/4	निजी	प्लाट	0.006	श्रीमती सुधा सिंह पत्नी राजेश सिंह परिहार जाति परिहार
			267/6	निजी	प्लाट	0.062	श्रीमती मंजुला पति रवि अग्रवाल सा. अग्रवाल भवन आदर्श नगर हवाई पट्टी संजय तनय स्व. नरसिंहप्रसाद अग्रवाल सा. एचआईजी भरहुत नगर सतना मनोज तनय गुलाबचन्द्र जाति अग्रवाल
			267/7	निजी	प्लाट	0.033	श्रीमती अरुणा पत्नी लोकेश पाण्डेय जाति ब्राम्हण
			267/8	निजी	प्लाट	0.004	श्रीमती मधूलता पत्नी मदनगोपाल मिश्रा जाति ब्राम्हण
			266/1	निजी	असिंचित	0.061	श्रीमती शीला तिवारी पुत्री शिवसेवक मिश्रा व रेनू पत्नी राजेश तिवारी पुत्री रामनिवास शुक्ला
			294/1	निजी	सिंचित	0.096	श्रीमती कुसुम पत्नी रामसिया गौतम
			294/2	निजी	सिंचित	0.260	उमा प्रताप सिंह राकेश सिंह पिता लक्ष्मण सिंह
			294/3	निजी	सिंचित	0.095	सत्यदेव पिता जगतपती उरमलिया
			273/2	निजी	सिंचित	0.047	रामप्रकाश तनय लालविहारी जाति ब्राम्हण
			273/3	निजी	सिंचित	0.047	रामप्रकाश तनय लालविहारी जाति ब्राम्हण
			293	निजी	सिंचित	0.215	श्रीमती छिब कुमारी पत्नी स्व. लाल सिंह राघवेन्द्र पिता लाल सिंह श्रीमती झरनी पत्नी स्व. अशोक सिंह वृषकेतु सुमित पिता अशोक सिंह

			292	निजी	सिंचित	0.207	रामलखन पिता रामकृपाल सरला भालू पुजिया रामकृपाल रामरूप व अनिल पिता श्यामलाल ब्रा0
			291	निजी	सिंचित	0.240	रामलखन पिता रामकृपाल सरला भालू पुजिया रामकृपाल रामरूप व अनिल पिता श्यामलाल ब्रा0
			290	निजी	मकान	0.015	श्रीमती इन्द्र शुक्ला पत्नी अशोक शुक्ला
			300/1/1	निजी	असिंचित	0.020	राकेश कुमार पिता रामजी चड्ढा
			351	निजी	सिंचित	0.150	श्रीमती रमादेवी देवी पत्नी विजयबहादुर सोनी
			411/1	निजी	प्लाट	0.076	शत्रुघ्न सिंह पिता लालमणि सिंह
			411/4	निजी	प्लाट	0.045	पूनम गौतम पत्नी शिवानन्द गौतम जति ब्राम्हण
			411/5	निजी	प्लाट	0.022	श्रीमती संजूलता पत्नी प्रदीप कुमार त्रिपाठी जाति ब्राम्हण
			411/6	निजी	प्लाट	0.097	श्रीमती विद्या सिंह पत्नी जयमान सिंह परिहार
			411/7	निजी	प्लाट	0.024	श्रीमती विभा पत्नी नीरव दीक्षित जाति ब्राम्हण
			411/8	निजी	प्लाट	0.039	जयमान सिंह पिता उग्रसेन सिंह परिहार
			411/16	निजी	प्लाट	0.009	श्रीमती मिथलेश पत्नी गुणनिधान गौतम जाति ब्राम्हण
			411/16	निजी	प्लाट	0.009	श्रीमती संगीता सिंह पत्नी सीरमण सिंह
			411/19	निजी	प्लाट	0.011	राकेशदत्त पिता मधुसूदन शुक्ला व ज्वाला प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद पाण्डेय
			411/14	निजी	प्लाट	0.005	बालेन्द्र पिता मुन्नीलाल मिश्रा
			411/10	निजी	प्लाट	0.006	श्रीमती मधु पत्नी राजानइया द्विवेदी
			411/11	निजी	प्लाट	0.009	आकाश पिता मनोज कुमार अग्रवाल
			411/12	निजी	प्लाट	0.006	श्रीमती सरोज पत्नी अश्वनी तिवारी
			411/15	निजी	प्लाट	0.008	आकाश पिता मनोज कुमार अग्रवाल
			411/13	निजी	प्लाट	0.004	श्रीमती सुरेखा पत्नी सुरेश कुमार
			339/2	निजी	सिंचित	0.020	श्रीमती मीरा पत्नी प्रमोद गौतम
			412/1/1	निजी	सिंचित	0.205	श्रीमती कृष्णादेवी पत्नी स्व0 नर्मदा प्रसाद तिवारी दिनेश प्रसाद योगेश प्रसाद उमेश प्रसाद पिता स्व0 नर्मदा प्रसाद तिवारी

			412/1/2	निजी	सिंचित	0.460	श्रीमती शोभना जैन पत्नी चक्रेश कुमार जैन श्रीमती पतिभा जैन पत्नी प्रवीणकुमारी जैन
			409/2	निजी	असिंचित	0.223	रामाश्रम वनव रावबिहाल तिवारी
			413	निजी	पार	0.308	राजेश कुमार पिता रामलखन द्विवेदी जाति ब्राम्हण टीप:- इसका कुल रकवा ही 0.308 है।
			414	निजी	पार	0.236	राजेश कुमार पिता रामलखन द्विवेदी जाति ब्राम्हण
			406	निजी	असिंचित	0.365	बसंतलाल लाल पिता रामहित सोनी
	सुकला		7	निजी	सिंचित	0.372	श्रीमती रेनू तिवारी पत्नी राजेश कुमार तिवारी
			2/414	निजी	सिंचित	0.089	कृपाल सिंह पिता जगतदेव सिंह
			5/2	निजी	सिंचित	0.192	समर बहादुर सिंह पिता काशी सिंह
			4	निजी	सिंचित	0.502	कृपाल सिंह पिता जगतदेव सिंह
			2/4/4	निजी	सिंचित	0.030	कृपाल सिंह पिता जगतदेव सिंह
			15/416/1	निजी	सिंचित	0.050	राजेश चौंसिया पिता शिव प्रसाद चौंसिया
			20	निजी	सिंचित	0.681	श्रीमती वन्दना सेन पुत्री स्वामीदीन सेन पत्नी उपेन्द्र सेन
			19	निजी	पार	0.045	श्रीमती वन्दना सेन पुत्री स्वामीदीन सेन पत्नी उपेन्द्र सेन
			18/2	निजी	सिंचित	0.613	रामाश्रम पिता भारत काछी
			22/1	निजी	सिंचित	0.093	कैलाश प्रसाद खरे पिता रामस्वरूप खरे
			24/1	निजी	पार	0.013	कैलाश प्रसाद खरे पिता रामस्वरूप खरे
			15/415	निजी	असिंचित	0.150	कृपाल सिंह पिता जगतदेव सिंह
	बमुरहा		226/1/3	निजी	असिंचित	0.017	देवेन्द्र सिंह पिता सत्यनारायण सिंह टीप- ग्राम बमुरहा में 226 नं. से जितना रकवा कम हुआ वह रकवा 217 में जुड़ा
			226/2/2	निजी	असिंचित	0.021	सुरेन्द्र सिंह पिता रामकिशोर वर्मा
			226/2/3	निजी	असिंचित	0.033	सुभाष कुशवाहा पिता शिवराम कुशवाहा
			226/2/4	निजी	असिंचित	0.017	रामबहोर सिंह पिता ईश्वरदीन सिंह
			226/3/1/2	निजी	असिंचित	0.017	रामबहोर सिंह पिता ईश्वरदीन सिंह
			226/2/14/3/1	निजी	असिंचित	0.050	श्रीमती सविता पत्नी सुनील कुमार गुप्ता
			226/3/2/6	निजी	असिंचित	0.065	श्रीमती गुडडी पत्नी जयराम तिवारी

	226/4/5	निजी	असिंचित	0.023	रामऔतार पिता राममिलन कुशवाहा
	226/3/1/3	निजी	असिंचित	0.010	पुष्पेन्द्र सिंह पिता सत्यनारायण सिंह
	226/3/1/4	निजी	असिंचित	0.005	गीता देवी पत्नी सत्यनारायण सिंह
	226/3/1/5	निजी	असिंचित	0.044	श्रीमती मीरा विश्वकर्मा पत्नी रामप्रसाद विश्वकर्मा
	226/2/14/3/2	निजी	असिंचित	0.011	श्रीमती संगीता पत्नी द्वारिका प्रसाद गुप्ता
	226/3/2/15	निजी	असिंचित	0.047	श्रीमती आशा देवी पत्नी राजेन्द्र गुप्ता
	226/3/2/14	निजी	असिंचित	0.018	महेन्द्र कुमार पिता सौखी लाल गुप्ता
	226/2/5	निजी	असिंचित	0.018	उत्ता तिवारी पत्नी यज्ञनारायण तिवारी
	226/2/13	निजी	असिंचित	0.016	पवन गुप्ता पिता नारायण प्रसाद गुप्ता
	226/4/20	निजी	असिंचित	0.014	सत्यनारायण गुप्ता पिता मोहनलाल गुप्ता
	226/4/21	निजी	असिंचित	0.014	दुर्गेश कुमार गुप्ता पिता मोहनलाल गुप्ता
	226/4/22	निजी	असिंचित	0.018	श्रीमती शकुन्तला ओझा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद ओझा
	226/4/23	निजी	असिंचित	0.028	राजीवलोचन पिता रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी
	226/4/27	निजी	असिंचित	0.015	विवेक पिता रामदीन गुप्ता
	226/4/28	निजी	असिंचित	0.008	कमलेश गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता
	226/4/7	निजी	असिंचित	0.018	शान्तनु कुमार पिता सुनील कुमार सिंह
	226/2/14/6	निजी	असिंचित	0.009	दिनेश कुमार पिता बाल्मीक गुप्ता
	226/4/11	निजी	असिंचित	0.016	रामचरण पिता बैजनाथ गुप्ता
	226/2/14/14	निजी	असिंचित	0.023	अंकुश रोचलानी पिता अशोक कुमार
	226/3/2/16	निजी	असिंचित	0.014	बाल्मीक पिता भगवत प्रसाद गुप्ता
	226/4/16	निजी	असिंचित	0.030	प्रदीप शर्मा पिता नारायण प्रसाद शर्मा
	226/4/9	निजी	असिंचित	0.023	राजकुमार द्विवेदी पिता रजनीश द्विवेदी
	226/2/14/10	निजी	असिंचित	0.018	आयोध्या सिंह पिता राममिलन सिंह पटेल
	226/2/19	निजी	असिंचित	0.018	जितेन्द्र कुमार पिता सुदामा प्रसाद सोनी
	226/2/14/1	निजी	असिंचित	0.051	कृष्ण कुमार सिंह पिता रघुराज सिंह

D

	226/3/2/1	निजी	असिंचित	0.100	हनुमान प्रसाद पिता रामबहोरी गुप्ता व लखनलाल पिता श्याम सुन्दर पटेल
	216/1	निजी	असिंचित	0.139	सत्यनारायण सिंह पिता सम्पत सिंह साठ देह
	216/2/1	निजी	असिंचित	0.023	हनुमान प्रसाद गुप्ता पिता रामबहोरी गुप्ता
	216/2/2	निजी	असिंचित	0.021	सत्यनारायण पिता बट्टी प्रसाद सोनी
	216/2/3	निजी	असिंचित	0.021	रामप्रकाश पिता सोनीलाल सोनी
	216/3	निजी	असिंचित	0.014	कशिश पत्नी शंकर तीलवानी
	216/4	निजी	असिंचित	0.018	राजकुमार पिता रामखेलावन वर्मा जबलपुर
	216/1 अंश	निजी	असिंचित	0.020	सन्तोष पिता अनन्तराम कुशवाहा
	216/1 अंश	निजी	असिंचित	0.033	प्रम पत्नी सन्तोष कुशवाहा
	215	निजी	असिंचित	0.008	सत्यनारायण सिंह पिता सम्पत सिंह साठ देह
	214	निजी	असिंचित मेंड़	0.025	सत्यनारायण सिंह पिता सम्पत सिंह साठ देह
	213/8	निजी	असिंचित	0.038	राविता बेगम पत्नी स्लाम बेग
	213/9	निजी	असिंचित	0.018	राजेन्द्र प्रसाद पिता गनेश प्रसाद कुशवाहा शुक्ला
	213/10	निजी	असिंचित	0.028	शिवनाथ पिता गैदीनाथ कुशवाहा
	213/11	निजी	असिंचित	0.029	रामबिहारी पिता रामपति प्रसाद मिश्रा
	213/12	निजी	असिंचित	0.013	राकेश कुमार पिता ठाकुर प्रसाद शुक्ला
	213/13	निजी	असिंचित	0.015	रामसिया पिता सन्त प्रसाद गौतम
	213/5	निजी	असिंचित	0.018	आशीष प्रताप पिता बंसबहादुर सिंह विसेन
	213/6	निजी	असिंचित	0.021	विजय कुमार पिता केदारनाथ साहू
	213/7	निजी	असिंचित	0.012	सुनील कुमार पिता जुगुल किशोर गुप्ता
	213/14	निजी	असिंचित	0.015	रामकली पत्नी महेश प्रसाद गुप्ता
	213/15	निजी	असिंचित	0.015	देवकीनन्दन पिता गंगाप्रसाद मिश्रा
	213/16	निजी	असिंचित	0.011	राकेश सिंह पिता रामेश्वर सिंह तिवारी
	213/1	निजी	असिंचित	0.236	सत्यनारायण सिंह पिता सम्पत सिंह साठ देह

			213/17	निजी	असिंचित	0.017	श्रीमती निर्मला मिश्रा पत्नी सुभाषचन्द मिश्रा
			213/3	निजी	असिंचित	0.018	श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी पदमधर सिंह
			213/4	निजी	असिंचित	0.038	श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी के०पी० सिंह परिवार
			213/19	निजी	असिंचित	0.010	बाबूलाल पिता रामसजीवन वर्मा
			210	निजी	सिंचित	0.135	सत्यनारायण सिंह पिता सम्पत सिंह सा० देह
			208	निजी	मैंड़	0.024	कमला सिंह पत्नी रामशरण सिंह हनुमान सिंह कृष्णपाल सिंह बीरेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह सुखेन्द्र सिंह पिता रामशरण सिंह रामराधो सिंह पिता रामबिहारी सिंह
			207	निजी	सिंचित	0.128	सत्यनारायण सिंह पिता सम्पत सिंह सा० देह
			195	निजी	असिंचित	0.037	कृष्णप्रताप सिंह पिता मनमोहन सिंह संतमान सिंह पिता रामप्रसाद सिंह शुशीलादेवी पत्नी छोटेला सिंह गुरुबक्स सिंह लालबहादूर सिंह गोविन्दनारायण पिता मुरली सिंह श्रीमती राजकुमारी पुत्री मुरली सिंह मु शान्ती देवी बेवा राधिका सिंह डीरा सिंह लक्ष्मण सिंह बालमीक सिंह
			196	निजी	असिंचित	0.351	मुधनपत कुमारी पत्नी दादन सिंह सा० देह
			197	निजी	असिंचित	0.207	श्रीमती चन्द्रवती पत्नी लल्ला सिंह राजेन्द्र सिंह पिता लल्ला सिंह राजकिशोर सिंह पिता रामसेवक सिंह
			86/1	निजी	सिंचित	0.187	श्रीमती विमलेश सिंह पत्नी राजेश सिंह बघेल
			86/2	निजी	सिंचित	0.023	अम्बुज सिंह पिता बृजेशसिंह बघेल
			85	निजी	सिंचित	0.182	कमला सिंह पत्नी रामशरण सिंह हनुमान सिंह कृष्णपाल सिंह बीरेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह सुखेन्द्र सिंह पिता रामशरण सिंह रामराधो सिंह पिता रामबिहारी सिंह
			76	निजी	सिंचित	0.006	कमला सिंह पत्नी रामशरण सिंह हनुमान सिंह कृष्णपाल सिंह बीरेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह सुखेन्द्र सिंह पिता रामशरण सिंह रामराधो सिंह पिता रामबिहारी सिंह

			84	निजी	असिंचित	0.040	कमला सिंह पत्नी रामशरण सिंह हनुमान सिंह कृष्णपाल सिंह बीरेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह सुखेन्द्र सिंह पिता रामशरण सिंह रामराधौ सिंह पिता रामबिहारी सिंह
			88 / 273	निजी	सिंचित	0.052	कमला सिंह पत्नी रामशरण सिंह हनुमान सिंह कृष्णपाल सिंह बीरेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह सुखेन्द्र सिंह पिता रामशरण सिंह रामराधौ सिंह पिता रामबिहारी सिंह
			51 / 1	निजी	असिंचित	0.294	श्री मती श्यामा सिंह पत्नी नरेन्द्र सिंह सवनम सिंवाकी पुत्री नरेन्द्र सिंह जाति वघेल
			48 / 1	निजी	सिंचित	0.048	बिहारी लाल द्वारिका पिता रामसिपाही काछी सा0 बमुरहा
			48 / 2	निजी	सिंचित	0.238	बिहारी लाल पिता रामसिपाही काछी सा0 बमुरहा
			48 / 3	निजी	सिंचित	0.020	द्वारिका पिता रामसिपाही काछी
			46 / 1	निजी	सिंचित	0.517	बिहारी लाल पिता रामसिपाही काछी सा0 बमुरहा
			46 / 2	निजी	सिंचित	0.190	द्वारिका पिता रामसिपाही काछी
			97 / 1	निजी	असिंचित	0.015	मोहन लाल पिता जगन्नाथ नाई जाति नाई टीप- खसरा नं.97 का कुल रकवा 0.205 है।
			97 / 2	निजी	असिंचित	0.019	पार्वती पत्नी राजेन्द्र सेन
			97 / 3	निजी	असिंचित	0.022	जयमंगल सिंह पिता राकूपाल सिंह जयभान सिंह पिता सम्पत सिंह
			97 / 4	निजी	असिंचित	0.045	छोटेलाल पिता विशेषर पटेल
			97 / 5	निजी	असिंचित	0.022	रजनीश पिता रामदेव वर्मा
			97 / 6	निजी	असिंचित	0.022	रानारायण पिता रामसजीवन बागरी
			97 / 7	निजी	असिंचित	0.017	श्रीमती आशादेवी पत्नी अवधशरण त्रिपाठी
			97 / 8	निजी	असिंचित	0.011	रामानन्द पिता महेशदास पाण्डेय
			97 / 9	निजी	असिंचित	0.011	राजेश कुमार पिता रामसेवक पाण्डेय
			97 / 10	निजी	असिंचित	0.021	जगमोहन सिंह पिता गुलाब सिंह
			96 / 276 / 1	निजी	असिंचित	0.033	नत्थूलाल पिता जगन्नाथनाई जाति नाई
			96 / 1 / 2 / 2	निजी	असिंचित	0.012	सुनील पिता बल्देव प्रसाद गुप्ता

			96/1/2/3	निजी	असिंचित	0.016	हनुमान प्रसाद पिता रामबहोरी गुप्ता
			96/1/2/4	निजी	असिंचित	0.032	महेश पिता बैजनाथ गुप्ता
			96/1/2/6	निजी	असिंचित	0.009	लखन लाल पटेल पिता श्यामसुन्दर पटेल धवारी
			96/1/2/1	निजी	असिंचित	0.046	महेश सिंह पिता चन्द्रिका सिंह
			96/1/1	निजी	असिंचित	0.015	श्रीमती श्यामा सिंह पत्नी नारेन्द्र सिंह
			96/2/1	निजी	असिंचित	0.023	श्रीमती राजकुमारी सिंह पत्नी मनमोहन सिंह कुंदहरी
			95/1	निजी	असिंचित	0.032	दिनेश सिंह पिता चन्द्रिका सिंह टीप-खसरा नं. 95 का कुल रकबा 0.073 है।
			95/2/1	निजी	असिंचित	0.021	महेशसिंह पिता चन्द्रिका सिंह
			95/2/2	निजी	असिंचित	0.020	सुनीता गुप्ता पिता बलदेव प्रसाद गुप्ता
			52/4	निजी	असिंचित	0.008	अम्बुज सिंह पिता बृजेशसिंह बघेल
			92	निजी	सिंचित	0.210	कृष्णप्रताप सिंह पिता मनमोहन सिंह संतभान सिंह पिता रामप्रसाद सिंह शुशीलादेवी पत्नी छोटेलाल सिंह गुरुबक्स सिंह लालबहादूर सिंह गोविन्दनारायण पिता मुरली सिंह श्रीमती राजकुमारी पुत्री मुरली सिंह मु. शान्ती देवी बेवा राधिका सिंह हीरा सिंह लक्ष्मण सिंह बालमीक सिंह पिता राधिका सिंह
			96/274/2	निजी	असिंचित	0.107	मोहन लाल पिता जगन्नाथ नाई जाति नाई
	घूरडाग		76/2/1	निजी	असिंचित	0.913	कृष्णकुमार सिंह पिता रघुराज सिंह
			76/1/11/2	निजी	असिंचित	0.009	श्रीमती सोमवती पत्नी शारदा प्रसाद गुप्ता जाति गुप्ता
			76/1/11/3	निजी	असिंचित	0.009	विनोद कुमार द्विवेदी पिता शम्भू प्रसाद द्विवेदी जाति ब्राम्हण साठ देह
			76/1/11/4	निजी	असिंचित	0.009	रमेश सोनी पिता जगन्नाथ सोनी जाति सोनार साठ सीधी
			76/1/11/5	निजी	असिंचित	0.009	अशोक कुमार पिता मंगल प्रसाद कुशवाहा झलवार
			76/1/6	निजी	असिंचित	0.050	अजय पिता अवध किशोर अग्रवाल मेहर
			76/1/15	निजी	असिंचित	0.009	श्रीमती आरती पत्नी रीतेश कुमार सोनी
			76/1/16	निजी	असिंचित	0.009	श्रीमती प्रभा सोनी पत्नी राजकुमार सोनी जाति सोनार हाठी

			76/2/14	निजी	असिंचित	0.018	श्रीमती शिवकुमारी पत्नी राजू गुप्ता साठ सतना
			76/2/21	निजी	असिंचित	0.028	श्रीमती शुशीला पत्नी शिवप्रसाद सोनी साठ सतना
			76/1/13	निजी	असिंचित	0.009	श्रीमती भारती पत्नी रविशंकर गुप्ता साठ अम्बर
			76/2/11	निजी	असिंचित	0.037	श्रीमती किरण पत्नी विनोद कुमार गुप्ता साठ देह
			76/2/32	निजी	असिंचित	0.033	जगदेव सिंह पिता बृन्दावन सिंह साठ कोलगवां
			76/2/33	निजी	असिंचित	0.033	श्रीमती केशकली पत्नी जगदेव सिंह साठ कोलगवां
			2/2/2	निजी	सिंचित	0.144	श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी रघुराज सिंह बघेल धूरडांग
			2/2/3	निजी	असिंचित	0.036	निमेश गर्ग पिता शरद गर्ग जबाहर नगर सतना
			2/2/4	निजी	असिंचित	0.023	पंकज कुमार पिता स्व० मथुरा प्रसाद पटेल
			2/2/5	निजी	असिंचित	0.036	प्रमोद कुमार शुक्ला पिता विश्वम्भर प्रसाद शुक्ला
			2/2/6	निजी	असिंचित	0.036	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी निशान्त प्रताप सिंह साठ सेमरी
			2/2/7	निजी	असिंचित	0.036	कमल सिंह पिता गुरुप्रसाद सिंह साठ धूरडांग
			2/2/8	निजी	असिंचित	0.036	राजन सिंह पिता छोटेलाल सिंह साठ देह
			3/1/1	निजी	असिंचित	0.008	ललुवा पिता अनुसुइया चमार जाति चमार साठ देह
			3/1/2	निजी	असिंचित	0.037	हनुमान प्रसाद गुप्ता पिता रामबहोरी गुप्ता भरहुत नगर सतना
			3/1/3	निजी	असिंचित	0.047	आशीष कुमार पिता हनुमान गुप्ता
			3/2/1	निजी	असिंचित	0.122	मथुरा पिता अनुसुइया चमार जाति चमार
			3/2/2	निजी	असिंचित	0.033	अजय बहादुर सिंह पिता ज्ञान बहादुर सिंह धूरडांग
			3/2/3	निजी	असिंचित	0.033	अनिल प्रताप सिंह पिता छोटेलाल सिंह साठ धूरडांग
			3/2/4	निजी	असिंचित	0.023	नारेन्द्र सिंह पिता जागेश्वर सिंह साठ पुरैनी
			3/2/5	निजी	असिंचित	0.033	निशान्त प्रताप सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह साठ सेमरी
			3/2/6	निजी	असिंचित	0.028	शरद कुमार सिंह पिता नागेश्वर सिंह साठ रीवा
			3/2/7	निजी	असिंचित	0.028	श्यामचरण पाण्डेय पिता घनश्याम पाण्डेय साठ उमरी
			3/2/8	निजी	असिंचित	0.023	वीरेन्द्र सिंह पिता जागेश्वर सिंह साठ पुरैनी

			3/2/9	निजी	असिधित	0.033	जीमती रामसुन्दरी सिंह परनी मोतीमन सिंह कुचवडी
			3/3/1	निजी	असिधित	0.083	महासातल पिता अनुसुद्धा बनार जाति बनार
			3/3/2	निजी	असिधित	0.037	लखन सातल पटेल पिता स्वामसुन्दर पटेल बनारी
			3/3/3	निजी	असिधित	0.047	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
			3/3/4	निजी	असिधित	0.028	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
			3/3/5	निजी	असिधित	0.037	लखनसातल पटेल पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
			3/3/6	निजी	असिधित	0.030	लखनसातल पटेल पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
			3/3/7	निजी	असिधित	0.080	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
			4	निजी	असिधित	0.384	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
	केसा भरिया	413/1/क	निजी	सिधित		0.174	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		413/1/ख	निजी	सिधित		0.072	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		410	निजी	सिधित		0.119	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		411	निजी	सिधित		0.034	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		402/1	निजी	असिधित		0.004	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		402/2	निजी	असिधित		0.034	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		402/3	निजी	असिधित		0.041	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		401/1/क	निजी	सिधित		0.053	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		401/1/ख	निजी	सिधित		0.023	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		401/2	निजी	सिधित		0.120	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		401/3	निजी	सिधित		0.163	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		400	निजी	असिधित		0.042	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		395	निजी	सिधित		0.080	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		394	निजी	असिधित		0.058	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी
		343/448	निजी	असिधित		0.028	जीमती रामसुन्दरी सिंह पिता लखनसातल पटेल सातल बनारी

				248/1	निजी	असिंचित	0.006	श्रीमती मीराबाई पत्नी स्वामी दीन नत्थू पिता स्वामी दीन शैलेन्द्र कुमार पिता स्वामी दीन ना० बली० मॅ मीरा बाई पत्नी स्वामी दीन गीता पुत्री स्वामी दीन सोनी
				389/1	निजी	सिंचित	0.044	बीरेन्द्र कुमार उर्फ लल्लन पिता रामलाल ब्रा०
				389/2	निजी	सिंचित	0.080	शालिकराम पिता रामलाल ब्रा०
				389/3	निजी	सिंचित	0.080	राजामइया पिता रामलाल ब्रा०
				385/1/ख /2	निजी	असिंचित	0.015	लक्ष्मण प्रसाद तनय गंगा प्रसाद कुशवाहा जाति काछी
				386/1	निजी	असिंचित	0.046	शालिकराम राजामइया पिता रामलाल ब्रा. श्रीमती रामरती पत्नी बीरेन्द्र प्रसाद ब्रा.
				388	निजी	असिंचित	0.119	रामआसरे पिता सूरजदीन कोरी जाति कोरी
				387	निजी	असिंचित	0.069	घनपत लाल पिता फुलकू कुशवाहा
				249	निजी	सिंचित	0.165	घनपत लाल पिता फुलकू कुशवाहा
				252/1	निजी	सिंचित	0.061	ऐश्वर दीन पिता रामनिवास कुशवाहा रुकमणी रमण जमुना प्रसाद ना.बलि.सर.भाई ऐश्वरदीन पिता रामनिवास कुशवाहा जाति काछी
				250	निजी	सिंचित	0.559	घनपत लाल पिता फुलकू कुशवाहा
				251	निजी	सिंचित	0.151	घनपत लाल पिता फुलकू कुशवाहा
				239	निजी	सिंचित	0.189	घनपत लाल पिता फुलकू कुशवाहा
				238/1	निजी	असिंचित	0.065	बीरेन्द्र कुमार उर्फ लल्लन पिता रामलाल ब्रा०
				238/2	निजी	असिंचित	0.065	शालिकराम पिता रामलाल ब्रा०
				238/3	निजी	असिंचित	0.065	राजामइया पिता रामलाल ब्रा०
				237/2	निजी	असिंचित	0.079	रामकेश पिता जामुना प्रसाद ब्रा०
				235/1/क	निजी	असिंचित	0.030	मॅ. सर्वेश्वरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड सतना
				234/1	निजी	असिंचित	0.305	मॅ. सर्वेश्वरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड सतना
				228/1/क	निजी	असिंचित	0.100	मॅसर्स बिरला जूट एन्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड सतना सीमेंट वर्क्स सतना
				228/2	निजी	असिंचित	0.176	मॅसर्स बिरला जूट एन्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड सतना सीमेंट वर्क्स सतना

			226/1	निजी	असिंचित	0.056	गणेश प्रसाद पिता पंचा कुशवाहा जाति काछी
			222/2/ख	निजी	असिंचित	0.004	मैसर्स बिरला जूट एन्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड सतना सीमेंट वर्क्स सतना
			222/1/ख	निजी	असिंचित	0.214	गणेश प्रसाद पिता पंचा कुशवाहा
			222/2/क /1/क	निजी	असिंचित	0.020	हीरामन पिता वैजनाथ झा
			137	निजी	सिंचित	0.225	श्रीमती सरला सिंह पत्नी जयदयाल सिंह संतनगर
			136/1	निजी	सिंचित	1.215	श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी रघुराज सिंह कृष्ण कुमार सिंह पुष्पराम सिंह पिता रघुराज सिंह
			49/426/2	निजी	असिंचित	0.045	बाबूलाल पिता माता दीन चमार
			49/427/2	निजी	असिंचित	0.075	बाबूलाल पिता माता दीन चमार
	बदखार		410	निजी	सिंचित	0.306	हरीप्रसाद रामगोपाल पिता ओंकार प्रसाद 3/4 विजय कुमार पिता रामरुचि झा 1/4 साठ विरहुली
			412	निजी	असिंचित	0.010	गंगाप्रसाद पिता श्यामसुन्दर झा
			415	निजी	असिंचित	0.259	गंगाप्रसाद पिता श्यामसुन्दर झा
			414	निजी	पार	0.033	अरविन्द कुमार बृजशंकर पिता रामस्वरूप
			413	निजी	असिंचित	0.432	अरविन्द कुमार बृजशंकर पिता रामस्वरूप
			387	निजी	असिंचित	0.045	मखौली पिता जुगराज कोरी
			388	निजी	असिंचित	0.108	जनकिया पिता ददियां गढ़रिया बदखार
			390	निजी	असिंचित	0.332	बृजशंकर उर्फ हरीप्रसाद तनय रामस्वरूप जाति ब्राम्हण
			389	निजी	असिंचित	0.508	जनकिया पिता ददियां गढ़रिया बदखार
			392	निजी	असिंचित	0.191	बशरूप तनय रामदास काछी जाति काछी
			377/1	निजी	असिंचित	0.014	रमेश प्रसाद तनय रामसेवक जाति ब्राम्हण
			376	निजी	सिंचित	0.217	जनकिया पिता ददियां गढ़रिया बदखार
			375	निजी	सिंचित	0.083	बशरूप तनय रामदास काछी जाति काछी
			373/2	निजी	मेंड़	0.004	बलविन्दर सिंह पिता सुरजीत सिंह
			373/3	निजी	मेंड़	0.016	रामकिशोर पिता रामचन्द्र गढ़रिया
			373/4	निजी	मेंड़	0.016	रामकृपाल पिता रामचन्द्र गढ़रिया

			373/5	निजी	मेंड़	0.013	दरबारी लाल पिता रामचन्द्र गड़रिया
			372/1	निजी	सिंचित	0.020	छैकौड़ीलाल पिता रामचन्द्र गड़रिया
			372/2	निजी	सिंचित	0.136	बलविन्दर सिंह पिता सुरजीत सिंह
			372/3	निजी	सिंचित	0.196	रामकिशोर पिता रामचन्द्र गड़रिया
			372/4	निजी	सिंचित	0.242	रामकृपाल पिता रामचन्द्र गड़रिया
			372/5	निजी	सिंचित	0.030	दरबारी लाल पिता रामचन्द्र गड़रिया
			357	निजी	सिंचित	0.189	जनकिया पिता ददियां गड़रिया बराबर
			362/627	निजी	सिंचित	0.077	घनश्यामदास पिता रामसेवक झा
			358/1	निजी	सिंचित	0.036	मोहन पिता चैना गड़रिया
			358/2	निजी	सिंचित	0.252	सुदीन पिता बलुआ गड़रिया
			360	निजी	सिंचित	0.075	सन्तोष रामनिवास राजीव पिता रामफल लोहार
			361/1/5	निजी	सिंचित	0.277	सन्तोष रामनिवास राजीव पिता रामफल लोहार
			317/2/1	निजी	पार	0.064	राकेश सिंह पिता जितेन्द्र सिंह जाति बघेल
			318/1 क	निजी	सिंचित	0.101	श्रीमती राजवती उर्फ रानी सिंह पुत्री बाबूलाल सिंह
			318/1/2	निजी	सिंचित	0.008	गंगादीन पिता बुद्धसेन पाल
			318/1/7/1	निजी	सिंचित	0.154	राकेश सिंह पिता जितेन्द्र सिंह जाति बघेल
			318/1/7/2/1	निजी	सिंचित	0.016	श्रीमती रेखा कापड़ी पत्नी संजय कापड़ी जाति कापड़ी
			318/1/7/2/3	निजी	सिंचित	0.031	मनीष तिवारी पिता तुलसी दास तिवारी
			318/1/7/2/2	निजी	सिंचित	0.008	रामविश्वास सिंह पिता बी० डी० सिंह
			318/1/7/2/4	निजी	सिंचित	0.008	पुष्पेन्द्र सिंह पिता शिवाधार सिंह
			318/1/7/3/1	निजी	सिंचित	0.202	सन्तोष द्विवेदी पत्नी अरुण कुमार द्विवेदी
			318/1/7/3/2	निजी	सिंचित	0.135	श्रीमती पवन सिंह पत्नी राकेश सिंह
			318/1/7/2/5	निजी	सिंचित	0.693	आनन्द पाण्डेय पिता रामसिपाही पाण्डेय सा० सतना
			318/1/ख	निजी	सिंचित	0.431	आनन्द पाण्डेय पिता रामसिपाही पाण्डेय सा० सतना

			318/1/7/4	निजी	सिंचित	0.364	श्रीमती रेखा कापड़ी पत्नी संजय कापड़ी जाति कापड़ी
			276/1	निजी	मैंद	0.034	विकास कुमार पिता यशनाथरायण व गुलाब बाई पुत्री छोटेलाल ब्राह्म
			235/1	निजी	सिंचित	0.306	परशुराम पिता हीरालाल ब्राह्म व गुलाब बाई पुत्री छोटेलाल ब्राह्म साठ देह
			235/2	निजी	सिंचित	0.036	सुनील कुमार तनय रामभुवन तिवारी
			237	निजी	सिंचित	0.157	श्रीमती नीशा गोयल पत्नी नरेश गोयल
			237/681/1	निजी	सिंचित	0.024	श्रीमती नीशा गोयल पत्नी नरेश गोयल
			231/1/1	निजी	असिंचित	0.090	संजय कुमार सिंह तनय स्वामनाथरायण सिंह कोलगावां
			231/1/2	निजी	असिंचित	0.149	संजय कुमार सिंह तनय स्वामनाथरायण सिंह कोलगावां
			231/2	निजी	असिंचित		संजय कुमार सिंह तनय स्वामनाथरायण सिंह कोलगावां
			227/1/1	निजी	असिंचित	0.012	लालबती पिता भगवान दीन खेहर बदखर
			227/2/2	निजी	असिंचित	0.055	संजय अग्रवाल पिता बालमुकुन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल
			227/2/3	निजी	असिंचित	0.060	संकर कापड़ी पिता बालमल कापड़ी
			228/1	निजी	असिंचित	0.120	लालबती पिता भगवान दीन खेहर बदखर टीच-सेब रकबा व नूस्बानी की जानकारी न होने से रकबा कम है।
			228/2	निजी	असिंचित	0.037	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी सुबेदार सिंह यादव
			228/3	निजी	असिंचित	0.032	अनुरा तिवारी पिता एम. पी. तिवारी
			228/4	निजी	असिंचित	0.015	श्रीमती किरण पत्नी यशवंत सिंह सेंगर
			228/5/1	निजी	असिंचित	0.059	रामजनम पिता इन्द्रदेव यादव
			228/7	निजी	असिंचित	0.018	सुमित चौरसिया पिता हेमचन्द्र चौरसिया
			228/8	निजी	असिंचित	0.015	श्रीमती प्रज्ञा पत्नी संजय बोडसे
			228/10	निजी	असिंचित	0.008	संतोष कुमार पिता राजाराम तिवारी जाति ब्राह्मण
			228/14	निजी	असिंचित	0.016	श्रीमती सुमन मौर्य पत्नी सुनील कुमार मौर्य
			228/15	निजी	असिंचित	0.017	श्रीमती बन्धना पत्नी अरविन्द कुमार नेमा
			228/17	निजी	असिंचित	0.020	श्रीमती यशोमति वर्मा पत्नी शिवसागर वर्मा

			228/18	निजी	असिंचित	0.017	श्रीमती रीना सिंह पत्नी महेश सिंह
			228/19	निजी	असिंचित	0.010	इन्द्रकली पत्नी राजबहोर तिवारी मउगंज रीवा
			228/21	निजी	असिंचित	0.030	शंकर पिता थारुमल कापड़ी साठ देह
			228/22	निजी	असिंचित	0.015	रविन्द्र सिंह पिता श्रीकान्त सिंह साठ छपरा
			228/23	निजी	असिंचित	0.032	श्रीमती सरोज पत्नी रामसरोवर पाण्डेय
			229/1	निजी	असिंचित	0.052	रामजनम यादव पिता इन्द्रदेव यादव
			229/2/3	निजी	असिंचित	0.051	अमित कुमार पिता ए०पी० तिवारी
			229/2/6	निजी	असिंचित	0.015	श्रीमती सरोज पत्नी रामसरोवर पाण्डेय
			229/2/7	निजी	असिंचित	0.012	दिनेश कुमार पिता मोहन लाल मिश्रा
			177	निजी	पार	0.050	सुनीता पत्नी रामविशाल कौशिल्या मोल्ली उर्फ मुन्नी मीना उर्फ लक्ष्मिनिया पिता रामविशाल व बाबूलाल पिता तुलसी राम लोधी साठ सतना
			663/170	निजी	असिंचित	0.596	सुनीता पत्नी रामविशाल कौशिल्या मोल्ली उर्फ मुन्नी मीना उर्फ लक्ष्मिनिया पिता रामविशाल व बाबूलाल पिता तुलसी राम लोधी साठ सतना
			170	निजी	असिंचित	0.019	सुनीता पिता रामविशाल कौशिल्या मोल्ली उर्फ मुन्नी मीना उर्फ लक्ष्मिनिया पिता रामविशाल व बाबूलाल पिता तुलसी राम लोधी साठ सतना
			169	निजी	असिंचित	0.036	सुनीता पिता रामविशाल कौशिल्या मोल्ली उर्फ मुन्नी मीना उर्फ लक्ष्मिनिया पिता रामविशाल व बाबूलाल पिता तुलसी राम लोधी साठ सतना
			168	निजी	असिंचित	0.033	सुनीता पिता रामविशाल कौशिल्या मोल्ली उर्फ मुन्नी मीना उर्फ लक्ष्मिनिया पिता रामविशाल व बाबूलाल पिता तुलसी राम लोधी साठ सतना
			167	निजी	असिंचित	0.026	सुनीता पिता रामविशाल कौशिल्या मोल्ली उर्फ मुन्नी मीना उर्फ लक्ष्मिनिया पिता रामविशाल व बाबूलाल पिता तुलसी राम लोधी साठ सतना

				106	निजी	असिंचित	0.065	सुनीता पिता रामविशाल कौशिक्या मोरली उर्फ गुन्नी मीना उर्फ लक्ष्मिनिया पिता रामविशाल व बाबूलाल पिता तुलसी राम लोधी साठ सतना
				86/2/2/1	निजी	असिंचित	0.029	उदयमान सिंह पिता रामसुन्दर सिंह
				86/1/2	निजी	असिंचित		
				86/2/1/2	निजी	असिंचित		
				86/1/1	निजी	असिंचित	0.057	धर्मेन्द्र पिता रामसिया कुशवाहा सतना
				86/625/2	निजी	असिंचित	0.015	भूलचन्द्र ओहर पिता मैयालाल ओहर साठ बदखर
				86/625/3 /1	निजी	असिंचित	0.028	श्रीमती मीरा कुशवाहा पत्नी रामसिया कुशवाहा
				86/625/4 /2	निजी	असिंचित	0.015	शिवाजी गुप्ता पिता चुन्नीलाल गुप्ता साठ मनकहरी
				86/625/4 /1	निजी	असिंचित	0.001	श्रीमती मीरा पत्नी रामसिया कुशवाहा
				86/625/4 /3	निजी	असिंचित	0.019	श्रीमती आशा देवी पत्नी राजेश कुमार मुक्ता
				86/625/4 /4	निजी	असिंचित	0.018	श्रीमती सरोज पत्नी रघुमचरण पायासी
				85/2/4	निजी	असिंचित	0.001	वृजेश कुमार पिता सूर्यमान सिंह साठ सोनवर्वा
				85/2/5	निजी	असिंचित	0.030	अनिल प्रदीप पिता रामसिया गुप्ता मन्थली
				85/2/7	निजी	असिंचित	0.001	सीलेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल सिंह साठ
				85/2/8	निजी	असिंचित	0.014	सुखेन्द्र सिंह पिता तेजमान सिंह बलवल
				85/2/8	निजी	असिंचित	0.032	भूपेन्द्र सिंह पिता भूषण सिंह पियरहा
				85/2/9	निजी	असिंचित	0.016	महेन्द्र सिंह पिता अवधराम सिंह करण सिंह पिता मइया लाल सिंह जाति कुर्मी
				85/2/10	निजी	असिंचित	0.026	श्रीमती पंचवती पत्नी रामावार सिंह कुर्मी
				85/1/2/2	निजी	असिंचित	0.062	इन्द्रमान सिंह पिता रामदेर सिंह साठ भरपुना
				85/1/2/1	निजी	असिंचित	0.019	जितेन्द्र पिता मधुसूदन द्विवेदी
				90/17/4	निजी	असिंचित	0.006	रामसोहावन तनय अजिजुनि द्विवेदी सतना
				90/22	निजी	असिंचित	0.005	श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी सुखेन्द्र सिंह
				90/18/5	निजी	असिंचित	0.012	लक्ष्मीनाथ सिंह पिता रामलाल सिंह सिद्धार्थ नगर सतना

			90/15	निजी	असिंचित	0.021	लक्ष्मण सिंह पुष्पेन्द्र सिंह पिता रामप्रकाश सिंह
			90/11/3	निजी	असिंचित	0.003	ओमप्रकाश पिता शंकरदत्त शुक्ला प्रतापपुर
			90/11/1	निजी	असिंचित	0.013	उमा पाण्डेय पत्नी रामायण प्रसाद पाण्डेय तिहाई
			90/1	निजी	असिंचित	0.056	धर्मन्द्र पिता रामसिया कुशवाहा सतना
			91/1/क	निजी	सिंचित	0.111	अच्छेलाल पिता मंगाली डोहर
			91/1/ख	निजी	सिंचित	0.144	रामाधार तनय मंगाली डोहर
			91/2/1	निजी	सिंचित	0.180	रामलखन पिता मोहन डोहर बराबर
			91/2/2	निजी	सिंचित	0.162	मैयालाल पिता मोहन डोहर
			93	निजी	सिंचित	0.076	मूलचन्द्र पिता मैयालाल डोहर बराबर
			94	निजी	सिंचित	0.032	मूलचन्द्र पिता मैयालाल डोहर बराबर
			95	निजी	असिंचित	0.113	धर्मन्द्र पिता रामसिया कुशवाहा सतना
			96	निजी	असिंचित	0.011	धर्मन्द्र पिता रामसिया कुशवाहा सतना
			83/1	निजी	मेंड़	0.061	राममिलन पिता कालू प्रसाद कुशवाहा
			83/3	निजी	मेंड़	0.024	राममिलन पिता कालू प्रसाद कुशवाहा
			97/2घ/1	निजी	असिंचित	0.066	मूलचन्द्र पिता मैयालाल डोहर बराबर
			71/1 ख	निजी	असिंचित	0.066	कृष्णपाल चतुर्वेदी पिता रामबली चतुर्वेदी दीपक पिता अंजनी त्रिपाठी साठ सतना
		बिरहुली कोठार	811/1/क	निजी	सिंचित आम-2	0.341	सुरेन्द्र प्रसाद पिता रेवतीरमण मिश्रा जाति ब्रा.
			811/1/ख	निजी	सिंचित	0.470	अञ्जनी नन्दन पिता रेवतीरमण जाति ब्रा.
			810	निजी	सिंचित	0.047	भीमसिंह पिता योगेन्द्र सिंह जाति बघेल
			818	निजी	सिंचित	0.478	अखिल प्रताप सिंह तनय भीम सिंह जाति बघेल
			819/1/क	निजी	असिंचित नहर व रास्ता	0.108	राजेन्द्र सिंह पिता मोहिन सिंह
			819/1/ख	निजी	सिंचित	0.195	सुखेन्द्र सिंह नागेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह व मोहन सिंह पिता रामनारायण सिंह
			819/2	निजी	सिंचित	0.474	पुष्पेन्द्र सिंह पिता ज्ञान सिंह जाति बघेल

				820	निजी	सिंचित	0.070	श्याम किशोर कमल किशोर दीपक कुमार पिता राम किशोर कौशल किशोर नवल किशोर अनिल कुमार अतुल कुमार विपिन कुमार पिता राज किशोर श्रीकृष्ण जय कृष्ण पिता रामकृष्ण श्रीमती विमला पत्नी रुपकृष्ण अनूप पिता सूर्यकृष्ण शुशीला पत्नी हरीकृष्ण राजमल्होत्रा संजीवमल्होत्रा पिता हरी कृष्ण
				804/843/2	निजी	असिंचित	0.113	सुखेन्द्र सिंह नागेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह व मोहन सिंह पिता रामनारायण सिंह
				825	निजी	पार	0.089	मोहन सिंह पिता रामनारायण सिंह
				824	निजी	सिंचित	0.224	श्याम किशोर कमल किशोर दीपक कुमार पिता राम किशोर कौशल किशोर नवल किशोर अनिल कुमार अतुल कुमार विपिन कुमार पिता राज किशोर श्रीकृष्ण जय कृष्ण पिता रामकृष्ण श्रीमती विमला पत्नी रुपकृष्ण अनूप पिता सूर्यकृष्ण शुशीला पत्नी हरीकृष्ण राजमल्होत्रा संजीवमल्होत्रा पिता हरी कृष्ण
				826	निजी	सिंचित	0.201	श्याम किशोर कमल किशोर दीपक कुमार पिता राम किशोर कौशल किशोर नवल किशोर अनिल कुमार अतुल कुमार विपिन कुमार पिता राज किशोर श्रीकृष्ण जय कृष्ण पिता रामकृष्ण श्रीमती विमला पत्नी रुपकृष्ण अनूप पिता सूर्यकृष्ण शुशीला पत्नी हरीकृष्ण राजमल्होत्रा संजीवमल्होत्रा पिता हरी कृष्ण
				803/866	निजी	सिंचित नहर	0.089	श्याम किशोर कमल किशोर दीपक कुमार पिता राम किशोर कौशल किशोर नवल किशोर अनिल कुमार अतुल कुमार विपिन कुमार पिता राज किशोर श्रीकृष्ण जय कृष्ण पिता रामकृष्ण श्रीमती विमला पत्नी रुपकृष्ण अनूप पिता सूर्यकृष्ण शुशीला पत्नी हरीकृष्ण राजमल्होत्रा संजीवमल्होत्रा पिता हरी कृष्ण
			मुरार	39	निजी	असिंचित पार	0.005	मुंदुल सिंह पत्नी आत्मानन्द सिंह अरुण सिंह पिता आत्मानन्द सिंह
				103	निजी	सिंचित	0.304	लक्ष्मण बचई बाबूलाल रामकरण जीवनलाल पिता चुलकलिया जाति नाई

				102	निजी	पार	0.009	लक्ष्मण बचई बाबूलाल रामकरण जीवनलाल पिता चुलबुलिया जाति नाई
				101	निजी	असिंचित	0.088	मुदुल सिंह पत्नी आत्मानन्द सिंह अरुण सिंह पिता आत्मानन्द सिंह
				100	निजी	सिंचित	0.158	जितेन्द्र सिंह पिता करम वीर सिंह सा०
				99	निजी	सिंचित	0.220	जितेन्द्र सिंह पिता करम वीर सिंह सा०
				40	निजी	सिंचित	0.559	जितेन्द्र सिंह पिता करम वीर सिंह सा०
				130	निजी	असिंचित	0.172	जितेन्द्र सिंह पिता करम वीर सिंह सा०
				41	निजी	असिंचित	0.026	जितेन्द्र सिंह पिता करम वीर सिंह सा०
				37	निजी	सिंचित द्यूबवेल-1	0.197	जितेन्द्र सिंह पिता करम वीर सिंह सा०
				38	निजी	सिंचित	0.169	जितेन्द्र सिंह पिता करम वीर सिंह सा०
				17	निजी	सिंचित	0.152	शिवेन्द्र सिंह पिता सतेन्द्र सिंह
				18	निजी	सिंचित आम -1	0.200	शिवेन्द्र सिंह पिता सतेन्द्र सिंह
				19/1	निजी	असिंचित आबादी	0.065	शिवेन्द्र सिंह पिता सतेन्द्र सिंह
				19/2	निजी	असिंचित आबादी	0.006	पुसुवा पिता मझका जाति कोल
				19/3	निजी	असिंचित आबादी	0.004	दरबरिया तनय पुसुवा जाति कोल
				1	निजी	सिंचित	0.209	श्याम किशोर कमल किशोर दीपक कुमार पिता समकिशोर खत्री-कौशल किशोर नवल किशोर अनिल कुमार अतुल कुमार विपिन कुमार पिता राजकिशोर श्रीकृष्ण जयकृष्ण पिता रामकृष्ण खत्री विमला पत्नी अनूप पिता रूपकृष्ण सुशीला पत्नी हरीकृष्ण खत्री राज संजीव पिता हरीकृष्ण खत्री जाति खत्री सा० सतना
				2	निजी	सिंचित	0.334	श्याम किशोर कमल किशोर दीपक कुमार पिता रामकिशोर खत्री कौशल किशोर नवल किशोर अनिल कुमार अतुल कुमार विपिन कुमार पिता राजकिशोर श्रीकृष्ण जयकृष्ण पिता रामकृष्ण खत्री विमला पत्नी अनूप पिता रूपकृष्ण सुशीला पत्नी हरीकृष्ण खत्री राज संजीव पिता हरीकृष्ण खत्री जाति खत्री सा० सतना

						श्याम किशोर कमल किशोर दीपक कुमार पिता रामकिशोर खत्री कौशल किशोर नवल किशोर अनिल कुमार अतुल कुमार विपिन कुमार पिता राजकिशोर श्रीकृष्ण जयकृष्ण पिता रामकृष्ण खत्री विमला पत्नी अनूप पिता रूपकृष्ण सुशीला पत्नी हरीकृष्ण खत्री राज संजीव पिता हरीकृष्ण खत्री जाति खत्री साठ सतना
सकरिया	997/2	निजी	सिंचित	0.543	रामकिशोर पिता अर्जुन कुम्हार	
	998	निजी	मैंड़	0.035	रविराजशरण पिता सियाशरण ब्राह्मण	
	999	निजी	सिंचित	0.878	रविराजशरण पिता सियाशरण ब्राह्मण	
	1000/1	निजी	मैंड़ आम-2	0.042	श्रीमती केशकली पत्नी रामकरण रणजीत अनिल पिता रामकरण सिंगरहा नोट-1000 का कुल रकबा 0.124 है।	
	1000/2	निजी	मैंड़ आम-4	0.040	श्रीमती सुमन पत्नी रामकुमार जाति ब्राह्मण	
	1000/3	निजी	मैंड़ नीम-1	0.042	श्रीमती पद्मनिया पत्नी मालकन्द मल्लाह	
	1001/2	निजी	सिंचित	0.099	श्रीमती सुमन पत्नी रामकुमार जाति ब्राह्मण	
	1002/1	निजी	सिंचित	0.160	श्रीमती केशकली पत्नी रामकरण रणजीत अनिल पिता रामकरण सिंगरहा	
	1002/2	निजी	सिंचित	0.202	श्रीमती सुमन पत्नी रामकुमार जाति ब्राह्मण	
	993/2/1	निजी	मैंड़	0.373	भीमसिंह पिता योगेन्द्र सिंह जाति बघेल	
	993/2/2	निजी	मैंड़	0.190	नरेन्द्र सिंह पिता योगेन्द्र सिंह	
	992/1	निजी	सिंचित	0.109	रामसुन्दर जगदीश प्रसाद पिता गजाधर श्यामसुन्दर पिता गजाधर रामगरीब पिता रामसेवक साठ देह राहिन गयाप्रसाद पिता रामसनेही ब्राह्मण मुर्तहिन जाति ब्राह्मण	
	990/1	निजी	सिंचित	0.109	रामसुन्दर जगदीश प्रसाद पिता गजाधर श्यामसुन्दर पिता गजाधर रामगरीब पिता रामसेवक राहिन गयाप्रसाद पिता रामसनेही मुर्तहिन जाति ब्राह्मण	
	994/2/2	निजी	सिंचित	0.296	नरेन्द्र सिंह तनय योगेन्द्र सिंह जाति बघेल	
	999/2	निजी	सिंचित दयुबवेल-1	0.248	श्रीमती संध्या पत्नी गनेश प्रसाद शारदा पुत्री गनेश प्रसाद नावाठ सर्मिला छमा खुशबू अन्तिमा पुत्री गनेश प्रसाद ब्राह्मण सरो शारदा पुत्री गनेश प्रसादसाठ देह	

			986/1	निजी	मेंड़ कहुआ-1 महुआ-1	0.045	रतन कुमार पिता गिरिजा प्रसाद झा
			987	निजी	सिंचित	1.342	रतनकुमार तनय गिरिजा प्रसाद मुसरोज बेवा रामसुजान अम्बरीश पिता रामसुजान झा
			986	निजी	मेंड़	0.030	रतनकुमार तनय गिरिजा प्रसाद मुसरोज बेवा रामसुजान अम्बरीश पिता रामसुजान झा
			958	निजी	सिंचित	0.458	रन्नु देवी पुत्री मंगल प्रसाद झा
			955	निजी	मेंड़	0.042	मुकेश कुमार श्रवण कुमार पिता रामधनी श्रीमती गायत्री पत्नी कमलेश झा
			956/1	निजी	सिंचित	0.755	मुकेश कुमार श्रवण कुमार पिता रामधनी श्रीमती गायत्री पत्नी कमलेश झा
			956/2	निजी	सिंचित	0.121	रन्नु देवी पुत्री मंगल प्रसाद झा
			957/2	निजी	मेंड़	0.047	रन्नु देवी पुत्री मंगल प्रसाद झा
		कोरहाई	87/2	निजी	असिंचित	0.087	श्री राम पिता यदुनाथ प्रसाद झा साठ माघवगढ़
			88/1	निजी	सिंचित बोर-1 मकान	0.527	बाबूलाल तनय हरशरण प्रसाद शर्मा जाति शर्मा साठ सकरिया
			89/1	निजी	असिंचित	0.144	श्री राम पिता यदुनाथ प्रसाद झा साठ माघवगढ़
			84/1ग	निजी	असिंचित	0.532	श्री राम पिता यदुनाथ प्रसाद झा साठ माघवगढ़
			84/2	निजी	असिंचित	0.730	जीतेन्द्र राहुल दीपक पिता सुन्दर लाल शर्मा साठ कोलगवां सतना
			81/2	निजी	असिंचित नीम-1	0.089	जीतेन्द्र राहुल दीपक पिता सुन्दर लाल शर्मा साठ कोलगवां सतना
			80/1क	निजी	सिंचित	0.200	मनसुख सिंह पिता रामजीतार सिंह साठ सेमतिया चीक सतना
			80/1ख	निजी	सिंचित	0.279	मोला पिता रामलाल कछेर साठ माघवगढ़
			79/1/ख	निजी	सिंचित	0.130	मोला पिता रामलाल कछेर साठ माघवगढ़
			79/2/1	निजी	सिंचित	0.105	जीतेन्द्र राहुल दीपक पिता सुन्दर लाल शर्मा साठ कोलगवां सतना
			79/2/2	निजी	सिंचित	0.080	अरविन्द सिंह पिता सन्त दास सिंह
			78/1	निजी	असिंचित पार	0.056	मोला पिता रामलाल कछेर साठ माघवगढ़
		मटेहना	437/1	निजी	असिंचित	0.023	मोहन सिंह पिता रामलाल सिंह साठ देह

			436	निजी	असिंचित	0.024	नरेन्द्र सिंह पिता त्रिवेणी प्रताप सिंह
			435	निजी	असिंचित	0.132	बलराज जयराज सुधा नन्दा सीता गीता रन्नु पिता राजाराम महापात्र साठ देह
			434	निजी	असिंचित	0.071	नरेन्द्र सिंह पिता त्रिवेणी प्रताप सिंह
			429	निजी	असिंचित	0.273	केशरी सिंह पिता गजान्धर सिंह कृपालपुर
			428	निजी	असिंचित	0.179	बलराज जयराज सुधा नन्दा सीता गीता रन्नु पिता राजाराम महापात्र साठ देह
			426/1	निजी	असिंचित	0.032	मोहनलाल पिता सुदाना प्रसाद साठ
			426/2	निजी	असिंचित	0.338	अमित पिता कुहरमल रामनामी रामकुमार पिता के० एल० माधवानी इतना रकबा ही प्रभावित है।
			425	निजी	असिंचित	0.036	रंजना सिंह पुत्री नरेन्द्र सिंह मटेहना
			420	निजी	असिंचित	0.039	ओमप्रकाश पिता जयहिन्द प्रसाद जाति ब्राह्मण
			419	निजी	असिंचित	0.078	बलविन्दर सिंह पिता सुरजीत सिंह
			418	निजी	असिंचित आम-15	0.244	बलविन्दर सिंह पिता सुरजीत सिंह
			417	निजी	असिंचित	0.515	ओमप्रकाश पिता जयहिन्द प्रसाद जाति ब्राह्मण
			402	निजी	सिंचित	0.083	विमूति भूषण आशोक कुमार उमाकाया श्रीकाया पिता जुगुल किशोर महापात्र
			363	निजी	असिंचित	0.686	बलराज जयराज सुधा नन्दा सीता गीता रन्नु पिता राजाराम महापात्र साठ देह
			364	निजी	असिंचित नहर-0.032	0.012	बलविन्दर सिंह पिता सुरजीत सिंह
			365	निजी	असिंचित	0.019	लक्षुरिया पिता मुन्डा कोल
			367	निजी	पार असिंचित	0.033	सुरेन्द्र कुमार आशोक कुमार पिता वृजन्मदन प्रसाद साठ माधवगढ़
			368	निजी	असिंचित	0.155	सुरेन्द्र कुमार आशोक कुमार पिता वृजन्मदन प्रसाद साठ माधवगढ़
			339	निजी	असिंचित	0.118	गोला प्रसाद हरवंत गोपी प्रसाद गोरी शंकर राजमान पिता रामदेव शर्मा

				360/1	निजी	असिंचित	0.093	मु. चन्द्रकली बेवा सुदर्शन प्रसाद सन्तोष कुमार पिता दिलीप कुमार नावा० वीना उमा गिरिजा शुशीला दुर्गा सरला विट्ठी ममता सविता पिकी पिता सुदर्शन प्रसाद 1/2 हि० मु. कृष्णकली बेवा राजकिशोर भगवत प्रसाद पिता राजकिशोर 1/2 हि० जाति ब्रा० सा० माधवगढ़
				360/2	निजी	असिंचित	0.016	ओमप्रकाश पिता जयहिन्द प्रसाद जाति ब्राम्हण
				364/1	निजी	असिंचित पार	0.004	चन्द्रशेखर पिता सुदामा प्रसाद ब्रा०सा० माधवगढ़
				365	निजी	असिंचित पार	0.012	आशोक कुमार पिता जुगुल किशोर ब्रा०
				344	निजी	तालाब	0.272	बसन्ता जागेश्वर रामप्रसाद पिता किशुन मल्लाह सा० सकरिया
				278/3	निजी	असिंचित पार	0.073	बृजेश पिता सुदामा प्रसाद महापात्र
				280/3ख	निजी	असिंचित	0.050	बृजेश पिता सुदामा प्रसाद महापात्र
				288	निजी	असिंचित	0.123	श्यामकली पत्नी लालमन कमलेश रमेश सूर्यमान पिता लालमन ब्रा०
				291/1	निजी	पार	0.040	दुइजी बेवा रामखेलावन बृजकिशोर पिता रामखेलावन ब्रा०
				292/1/1	निजी	असिंचित	0.104	बृजकिशोर पिता रामखेलावन ब्रा०
				292/1/2	निजी	असिंचित	0.428	नारायण प्रसाद पिता सोखीलाल ब्रा०
				292/4	निजी	असिंचित	0.305	छोटलाल पिता रामजीतार ब्रा०
				293	निजी	असिंचित पार	0.043	राजेन्द्रसिंह पिता रामखेलावन सिंह
				294/1	निजी	असिंचित	0.080	सुरेन्द्र कुमार आशोक कुमार पिता बृजनन्दन ब्रा०
				294/2	निजी	असिंचित नीम-1	0.020	अंजनी कुमार सिंह पिता गुरुप्रसाद सिंह सा० देह
				294/4/क/2	निजी	असिंचित	0.225	राजेन्द्र सिंह पिता रामखेलावन सिंह
				294/4/ख	निजी	असिंचित	0.050	बृजेश शर्मा पिता सुदामा प्रसाद शर्मा
				84/2	निजी	असिंचित पार	0.028	ब्रह्मसिरोमणि पिता ब्रजलाल महापात्र

			84/3	निजी	असिंचित पार	0.028	राम प्रकाश पुत्र रामाश्रय मू. अश्व देवी विधवा संतोष कुमार, अरुण कुमार, विपिन कुमार तथा पुत्र संतोष कुमार वती मां आशा देवी ब्राह्मण
			77/2	निजी	असिंचित	0.174	उषा पुत्री अयोध्या प्रसाद ब्राह्मण
			76/1/ख	निजी	असिंचित	0.002	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बट्टी प्रसाद ब्राह्मण
			76/2/2	निजी	असिंचित आम-4 पीपल-1	0.146	मिथिला प्रसाद पुत्र गंगा प्रसाद ब्राह्मण
			76/3	निजी	असिंचित	0.154	रामजीत पुत्र गजाधर प्रसाद ब्राह्मण
			75/1/1	निजी	असिंचित	0.036	कन्नू प्रसाद पुत्र रामखिलावन ब्राह्मण
			75/1/2	निजी	असिंचित	0.016	ममोज पुत्र रामखिलावन ब्राह्मण
			75/2	निजी	असिंचित	0.053	रत्नु विधवा बैजनाथ रामायण रंजीत पुत्र बैजनाथ ब्राह्मण
			75/3	निजी	असिंचित	0.040	रामजीत पुत्र गजाधर प्रसाद ब्राह्मण
			74/2	निजी	असिंचित	0.044	उषा पुत्री अयोध्या प्रसाद ब्राह्मण

[फा. सं. आर.डब्ल्यू/एनएस-37014/23/2010-एनएचडीपी-IV ए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2013

S.O. 44(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1207(E) dated 25/05/2012, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.75 on the stretch of land from Km. 155.000 to Km. 172.900 (Satna – Bela Section) in Satna district in the State of Madhya Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Jagran, Rewa Edition**” dated 8th June 2012 and “**Dainik Bhaskar, Satna Edition**” dated 11th June 2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brif Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 155.000 to km. 172.900 (Satna-Bela section) of the National Highway no. 75 in the District Satna In the State of Madhya Pradesh.

S.N	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey No.	Type of land	Nature of land	Acored Area in(Hec)	Name of owner
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satna	Raghuraj Nagar	Saristal	79/2	Private	Paar	0.035	Parag S/o Veer Bhagat Shahu
				78/1	Private	Unirrigated	0.081	Black Star Paper Mills Limited Surya : Aspatment 372 Shakti Nagarj
				167/1	Private	Unirrigated	0.073	Parag S/o Veer Bhagat Shahu
				167/2	Private	Unirrigated	0.069	Silver Payer Finance Private Limited Satna B.M. Mainagar Dist. Ramesh Singh S/o Dattatray Singh
				168/2	Private	Unirrigated	0.008	Silver Payer Finance Private Limited Satna B.M. Mainagar Dist. Ramesh Singh S/o Dattatray Singh
				169/1	Private	Par	0.005	Nitin S/o Naresh Agrawal
				129	Private	Garden	0.221	Ramesh S/o Gopal S/o Ramramendra Singh
				128	Private	Paar	0.022	Ramesh S/o Gopal S/o Ramramendra Singh
				147/1	Private	Paar	0.005	Ram S/o Jai S/o Harman Joli
				147/2	Private	Paar	0.008	Ram S/o Jai S/o Harman Joli
				165/1	Private	Paar	0.160	Nitin S/o Naresh Agrawal
				164/1	Private	Irrigated	0.060	Nabal S/o Naresh Agrawal
				164/2	Private	Irrigated	0.061	Nitin S/o Naresh Agrawal
				163/1	Private	Unirrigated	0.132	Nabal S/o Naresh Agrawal
				162/1	Private	Unirrigated	0.044	Nabal S/o Naresh Agrawal
				162/2	Private	Unirrigated	0.044	Nitin S/o Naresh Agrawal
				161/1	Private	Paar	0.040	Nabal S/o Naresh Agrawal

			161/2	Private	Paar	0.041	Nitin S/o Naresh Agrawal
			158	Private	Unirrigated	0.493	Kailash Nath S/o Ramchandra Gupta
			159	Private	Paar	0.015	Kailash Nath S/o Ramchandra Gupta
			157/1/1	Private	Unirrigated	0.184	Diwaker Lal Ji S/o Jagdish Pd. Brahman
			157/1/2	Private	Unirrigated	0.185	Gagnendra Pratap Singh S/o Rampratap Singh Umesh S/o Uday Sharan Chaturvedi Vinay S/o Ramsiromani Shukla
			157/2	Private	Unirrigated	0.184	Vipin Kumar S/o Diwaker Prasad Chaturvedi
			272/1	Private	Paar	0.028	Diwaker Lal Ji S/o Jagdish Pd. Brahman
			272/2	Private	Paar	0.029	Ajay Kumar S/o Diwaker Chaturvedi
			270/1/1 क	Private	Unirrigated	0.173	Diwaker Lal Ji S/o Jagdish Pd. Brahman
			270/1/1 ख/1	Private	Unirrigated	0.174	Ramnivash S/o Rambhadrachary Brahman
			270/1/1 ख/2	Private	Unirrigated	0.134	Rambhadrachary S/o Madhvachary Brahman
			269	Private	Unirrigated	0.024	Priti Develobment And Lising Pravate Limited 25 Barbariya State Rammandir Rod Goreganwa Mumbai
		Itaura	111	Private	Paar	0.032	Smt.Usha Singh D/o Chandrabhushan Singh Arun Pratap Singh Ajit Singh Hari Singh S/o Chandra Bhushan Singh
			110	Private	Unirrigated	0.405	Smt.Usha Singh D/o Chandrabhushan Singh Arun Pratap Singh Ajit Singh Hari Singh S/o Chandra Bhushan Singh
			118	Private	Par	0.172	Smt.Usha Singh D/o Chandrabhushan Singh Arun Pratap Singh Ajit Singh Hari Singh S/o Chandra Bhushan Singh
			109/1	Private	Unirrigated	0.023	Suresh Prasad S/o Baboo Lal Brahman
			109/2	Private	Unirrigated	0.023	Jai Prakash S/o Baboo Lal Brahman
			109/3	Private	Unirrigated	0.022	Ramensh Prasad S/o Baboo Lal Brahman
			125	Private	Par	0.485	Smt.Usha Singh D/o Chandrabhushan Singh Arun Pratap Singh Ajit Singh Hari Singh S/o Chandra Bhushan Singh

			100/1/क	Private	Unirrigated	0.046	Ganga Prasad Vishanu Prasad S/o Sunder Lal Bari
			100/1/ख /1	Private	Unirrigated	0.046	Ramsajivan S/o Kaloo Bari
			101/1/ख /2	Private	Unirrigated	0.106	Ramsajivan S/o Kaloo Bari
			99	Private	Unirrigated	0.405	Vishambher Dayal S/o Kaloo Ram Brahman
			11/1/1क /1क/1	Private	Unirrigated	0.152	Jitendra Kumar Jain S/o Prakash Chandra Jain Or Arvindra Kumar Jain S/o Keshav Ram Jain
			11/1/1क /1क/2	Private	Unirrigated	0.022	Mahendra Kumar Jain S/o Prakash Chandra Jain
			11/1ख/1	Private	Unirrigated	0.032	Suresh Kumar S/o Buddhu Lal Sonker
			12/1क/1 क	Private	Par	0.012	Jitendra Kumar Jain S/o Prakash Chandra Jain Or Arvindra Kumar Jain S/o Keshav Ram Jain
			12/1क/ 1ख	Private	Par	0.008	Mahendra Kumar Jain S/o Prakash Chandra Jain
			13/1क/1 क	Private	Unirrigated	0.761	Jitendra Kumar Jain S/o Prakash Chandra Jain Or Arvindra Kumar Jain S/o Keshav Ram Jain
			14/1क /1क	Private	Par	0.012	Jitendra Kumar Jain S/o Prakash Chandra Jain Or Arvindra Kumar Jain S/o Keshav Ram Jain
			14/1क /1ख	Private	Par	0.012	Mahendra Kumar Jain S/o Prakash Chandra Jain
			30	Private	Garden	0.405	Niti Development And Nisingh Pravate Limited 25 Bakhariya Indrastriy State Rammandir Road Gorganwa West Mumbai Jaikirt State And Riya Pravate Limited Durga Nagar Vikhrauli Lings Road Nabaskar Building ke Samne Jageswari East Mumbai
		Giduri	105/1, 106/1	Private	Unirrigated	0.200	Mu. Ramkali widow Sobhnath Tiwari Rajendra Kumar Tiwari S/o Sobhnath Tiwari Caste Bramhan
			105/4, 106/4	Private	Unirrigated	0.060	Sushil Kumar S/o Balwant Ram Tripathi
			106/5, 106/5	Private	Unirrigated	0.100	Dilip Kumar S/o Ramanuj Chaturvedi
			107/2/क	Private	Unirrigated	0.100	Narendra Kumar S/o Muktilal Jain

				107/2/ख	Private	Unirrigated	0.099	Mahesh Malik Tanay Gopaldas Malik Sa. Krishnnagar Satna Deepak Chandani Tanay Ramchadra Chandani Ganpat Marg Satna Suresh Kesharwani Tanay Shivprasad Keshwarni Chanyakpuri Kaloni Satna
				107/3/1	Private	Unirrigated	0.025	Smt. Kusum w/o Indrapal patel
				107/3/2	Private	Unirrigated	0.013	Aanand Kumar S/o Ramsiya Patel
				107/3/3	Private	Unirrigated	0.018	Pramod Kumar Shukla Tanay Kamta Prasad Caste Bramhan
				107/3/4	Private	Unirrigated	0.017	Pravin Kumar Pathak S/o Pramod Kumar Pathak Caste Brahman
				108/1	Private	Unirrigated	0.080	Smt. Kusum w/o Indrapal patel
				109/2	Private	Unirrigated	0.010	Smt. Kusum w/o Indrapal patel
				112/क	Private	Irrigated	1.200	Chaikaudi S/o Sitla Prasad Caste Brahman
				113	Private	Unirrigated	0.056	Chaikaudi S/o Sitla Prasad Caste Brahman
				114/1/क /2	Private	Unirrigated	0.100	Gulam Dasgir S/o Gulam Rasul
				114/1/क /3/1	Private	Unirrigated	0.060	Smt. Supriya Chaudha W/o Aashish Kumar Chaudha
				114/1/ख	Private	Unirrigated	0.200	Dr.Bhartendu Patel S/o C.L.Patel
				114/1/क /3/1/1	Private	Unirrigated	0.100	Tarun Kumar Tanay Laxmi Prasad Agnihotri Sandeep Kumar Tanay Premlal Garg Kailashnath Tanay Motilal Tiwari Annadi Kumar Tanay Ramrudra Mishra
				114/1/क /3/1/2	Private	Unirrigated	0.100	Smt. Radha Sharma W/o Ravi Prakash Sharma
				115/1/ख	Private	Unirrigated	0.033	Dr.Bhartendu Patel S/o C.L.Patel
				117	Private	Unirrigated	0.084	Devraj S/o Shiv Dayal Caste Ladiya
				118	Private	Irrigated	0.275	Devraj S/o Shiv Dayal Caste Ladiya
				118/क	Private	Unirrigated	0.174	Smt. Sarla W/o Rajendra Gautam
				136	Private	Irrigated	1.418	Lal Hari Singh S/o Lalchandra Bhushan Pratap Caste Singh
				123	Private	Irrigated	0.772	Lal Hari Singh S/o Lalchandra Bhushan Pratap Caste Singh

			125	Private	Irrigated	0.376	Lal Hari Singh S/o Lalchandra Bhushan Pratap Caste Singh
			124	Private	Irrigated	0.034	Lal Hari Singh S/o Lalchandra Bhushan Pratap Caste Singh
		Amaudha	15	Private	Irrigated	0.313	Badri Singh Pradyumn Singh Uttam Singh S/o Shivcharan Singh
			15/843	Private	Irrigated		Badri Singh Pradyumn Singh Uttam Singh S/o Shivcharan Singh
			16	Private	Irrigated	0.919	Badri Singh Pradyumn Singh Uttam Singh S/o Shivcharan Singh
			17	Private	Unirrigated	0.184	Jugulkishore Mishra Alok Kumar Mishra S/o Jagdish Prasad Mishra
			18	Private	Unirrigated	0.040	Dinesh Prasad S/o Sundarlal Caste Sharma
			14	Private	Unirrigated	0.010	Badri Singh Pradyumn Singh Uttam Singh S/o Shivcharan Singh
			11	Private	Road	0.391	Youvraj Kumar S/o Heeralal Mishra
			10	Private	Unirrigated	0.139	Jagdish Kumhar S/o Bhola Kumhar
			19/1	Private	Unirrigated	0.174	Ashutosh Dwivedi Tanay Laxhanlal Dwivedi Caste Bramhan
			5	Private	Unirrigated	0.033	Munendra Prasad S/o Gopika Pd. Nava. Bali. Sar. Mather Of Shila Devi
			137/2/1	Private	Irrigated	0.061	Satendra Kumar S/o Ramayan Pandey
			138/1	Private	Irrigated	0.061	Shyam Lal Sunder Lal S/o Pardesiya Chamar Santosh Kumar Rajkumar Mithilesh S/o Mahgusa Chamar
			138/2	Private	Irrigated	0.221	Satendra Kumar S/o Ramayan Pandey
			139/1	Private	Irrigated	0.037	Shyam Lal Sunder Lal S/o Pardesiya Chamar
			139/2	Private	Irrigated	0.044	Satendra Kumar S/o Ramayan Pandey
			142/1	Private	Unirrigated	0.335	Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar
			142/2	Private	Unirrigated		Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar
			142/3	Private	Unirrigated		Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar
			142/4	Private	Unirrigated		Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar
			142/5	Private	Unirrigated		Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar
			142/6	Private	Unirrigated		Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar

			143/1	Private	Unirrigated	0.121	Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar
			143/2/2	Private	Unirrigated	0.040	Smt. Chaturesh Kumari Yadav W/o Ramgareeb Yadav
			141/1	Private	Unirrigated	0.050	Smt. Urmila Bajaj W/o Mithlesh Bajaj
			141/2	Private	Unirrigated	0.150	Rajkumar Agrawal S/o Ganesh Prasad Agrawal Caste Agrawal
			141/3/1	Private	Unirrigated	0.100	Shatrudhan Singh Tanay Lalmani Singh
			141/4/1	Private	Unirrigated	0.100	Smt. Manju Yadav W/o Umesh Yadav Smt. Upasna Singh D/o Mahesh Singh Sengar
			144/5/1	Private	Unirrigated	0.012	Guljarilal Tanay Bhola Kumhar Caste Kumhar
			144/6/1	Private	Unirrigated	0.012	Smt. Manju Yadav W/o Umesh Yadav Smt. Upasna Singh D/o Mahesh Singh Sengar
			144/1	Private	Unirrigated	0.045	Smt. Chaturesh Kumari Yadav W/o Ramgareeb Yadav
			144/4/2	Private	Unirrigated	0.008	Smt. Urmila Bajaj W/o Mithlesh Bajaj
			144/5/2	Private	Unirrigated	0.019	Rajkumar Agrawal S/o Ganesh Prasad Agrawal
			146/1/3 /1/3	Private	Unirrigated	0.026	Narendra Kumar Vinay Kumar S/o Rampati
			146/1/3	Private	Unirrigated	0.020	Smt. Nirmala Singh W/o Udaybhan Singh
			146/2	Private	Unirrigated	0.202	Guljarilal S/o Bhola Kumhar
			146/3/1	Private	Unirrigated	0.100	Vivek Singh S/o Vinod Singh
			146/5/2 /2	Private	Unirrigated	0.017	Smt. Saroj Singh W/o Ashok Singh
			146/5/2 /4	Private	Unirrigated	0.049	Parasuram S/o Triloki Prasad Sukla
			146/1/3 /1/5	Private	Unirrigated	0.024	Smt. Manisha Parnaha W/o Aswani Parnaha
			146/1/2 /1/3	Private	Unirrigated	0.012	Rajbahoran S/o Manorath Singh
			148/1	Private	Unirrigated	0.083	Rajkumar S/o Sharda Singh
			149/1/1	Private	Unirrigated	0.264	Rajkumar S/o Sharda Singh
			149/1/2	Private	Unirrigated	0.061	Smt. Indrawala W/o Ghanshyam
			152/2	Private	Unirrigated	0.045	Rajkumar Singh S/o Sharda Singh
			152/3	Private	Unirrigated	0.045	Rakesh Kumar S/o Ramkripal Patel

Khera	41	Private	Irrigated	0.040	Rampat D/o Ramadhar Dhaiya
	42/1/1	Private	Unirrigated Par	0.055	Rampat D/o Ramadhar Dhaiya
	42/1/2	Private	Unirrigated Par	0.049	Mangal Prasad S/o Kamta Prasad Prajapati Caste Kumhar
	45	Private	Irrigated	0.622	Rampat D/o Ramadhar Dhaiya
	43	Private	Irrigated	0.235	Rampat D/o Ramadhar Dhaiya
	44/1/1	Private	Irrigated	0.300	Pradeep Kumar S/o Rishikesh Aagnihotri
	44/2	Private	Irrigated Tubwel -1		Mangal Prasad S/o Kamta Prasad Prajapati Caste Kumhar
	37/1	Private	Unirrigated Par	0.153	Kuldeep Nava. Wali S/o Pradip Kumar Aagnihotri
	37/2	Private	Unirrigated Par		Udit Nava. Wali S/o Pradip Kumar Aagnihotri
	40/1	Private	Irrigated	0.249	Rukmani Devi Widow Pratap Singh Ramlakhan Singh Shivratan Singh S/o Pratap Singh Sa. Majhaganwa
	36/151	Private	Unirrigated	0.662	Udit Kumar Nava. Bali S/o Pradip Kumar Aagnihotri
	36/1/1	Private	Irrigated	0.042	Ravikumar Kumar S/o Ramprasad Aagnihotri
	36/2/1	Private	Irrigated	0.904	Kuldeep Nava. Wali S/o Pradip Kumar Aagnihotri
	36/2/2	Private	Irrigated		Udit Nava. Wali S/o Pradip Kumar Aagnihotri
	35/1	Private	Paar Unirrigated	0.060	Ravikumar Kumar S/o Ramprasad Aagnihotri
	5/1	Private	Paar Unirrigated	0.056	Omprakash S/o Jagannath Aagnihotri
	4	Private	Irrigated	0.043	Omprakash S/o Jagannath Aagnihotri
	6/1/1ख	Private	Irrigated	0.279	Ashok Singh S/o Banshdhari Singh Rajendra Nagar Satna
	6/1/2ख	Private	Irrigated		Ashok Singh S/o Banshdhari Singh Rajendra Nagar Satna
	6/2	Private	Irrigated	1.637	Sunil Kumar S/o Ramkishor Smt. Kamlesh W/o Anil Kumar Aswani S/o Anil Kumar Nava. Wali. Sar. Mother Of Smt. Kamlesh Or Smt. Shashika W/o Rajesh Kumar Amit Kuamr Askash Nava. S/o Rajesh Kumar Wali. Sar. Mother Of Smt. Shashi Brahman

			6/3	Private	Irrigated		Sunil Kuamr S/o Ramkishor Brahman
			7/1	Private	Paar Unirrigated	0.095	Sunil Kumar S/o Ramkishor Smt. Kamlesh W/o Anil Kumar Aswani S/o Anil Kumar Nava. Wali. Sar. Mother Of Smt. Kamlesh Or Smt. Shashikla W/o Rajesh Kumar Amit Kuamr Aakash Nava. S/o Rajesh Kumar Wali. Sar. Mother Of Smt. Shashi Brahman
			7/2	Private	Paar Unirrigated		Sunil Kuamr S/o Ramkishor Brahman
			8	Private	Irrigated	0.090	Sarantosh Kumar S/o Shivkumar Singh
			18	Private	Irrigated	0.020	Badri Singh Pradyumn Singh Uttam Singh Raviraj Singh S/o Shivcharan Singh Caste Singh
			17	Private	Irrigated	0.120	Badri Singh Pradyumn Singh Uttam Singh Raviraj Singh S/o Shivcharan Singh Caste Singh
			19	Private	Irrigated	0.140	Sunil Kumar S/o Ramkishor Smt. Kamlesh W/o Anil Kumar Aswani S/o Anil Kumar Nava. Wali. Sar. Mother Of Smt. Kamlesh Or Smt. Shashikla W/o Rajesh Kumar Amit Kuamr Aakash Nava. S/o Rajesh Kumar Wali. Sar. Mother Of Smt. Shashi Brahman
			9/1/क	Private	Irrigated Nalkoop-1	0.738	Badri Pradyumn Singh Uttam Singh Raviraj Singh S/o Shivcharan Singh Caste Singh
		Bagaha	233/2/3	Private	Irrigated	0.013	Smt. Sima W/o Suresh Baderiya
			235/1	Private	Irrigated	0.506	Smt. Sila Tiwari D/o Kiwchhedak Or Renu W/o Rajesh Tiwari D/o Ramnivash Shukla
			242	Private	Irrigated	1.160	Rajbahadur Singh S/o Ramhit Singh
			241/3	Private	Irrigated	0.901	Rajbahadur Singh S/o Ramhit Singh
			249/1/1	Private	Med	0.030	Birendra Singh S/o Raghuraj Singh
			249/2	Private	Med	0.030	Ramasray Singh S/o Ramhit Singh
			248/1/1	Private	Irrigated	0.600	Birendra Singh S/o Raghuraj Singh
			248/1/2	Private	Irrigated	0.020	Santosh Singh Tanay Raghuraj Singh Caste-Singh
			248/2	Private	Irrigated	0.400	Ramasray Singh S/o Ramhit Singh

			248/986 /1	Private	Irrigated	1.056	Santosh Singh Tanay Raghuraj Singh Caste Singh
			268/1	Private	Plat	0.001	Motilal S/o Raghunath Prasad Caste Bramhan
			268/2	Private	Plat	0.003	Smt. Sunita W/o Brijendra Nath Tiwari Caste Brahman
			268/3	Private	Plat	0.035	Smt. Archana Tripathi W/o Rajeevlochan Tripathi Caste Bramhan
			268/6	Private	Plat	0.033	Smt. Dipa W/o Dhanesh Kumar Tripathi
			268/7	Private	Plat	0.008	Raghunandan S/o Shiv Prasad Yadav
			268/8	Private	Plat	0.001	Sangeeta W/o S.L. Yadav
			268/9	Private	Plat	0.012	Smt. Shakuntla W/o Chandra Das Yadav
			267/1	Private	Plat	0.061	Virendra Kumar Tanay Munnalal Caste Tripathi
			267/2	Private	Plat	0.092	Smt. Shanti W/o Ramkushal Soni Caste Sonar
			267/4	Private	Plat	0.006	Smt. Sudha Singh W/o Rajesh Singh Parihar Caste Parihar
			267/6	Private	Plat	0.062	Smt. Manjula W/o Ravi Agrawal Sa. Agrawal Bhawan Adarsh Nagar Hawaii Patti Sanjay Tanay Sw. Narsingh prasad Agrawal Sa. H.I.G. Bharut Nagar Satna Manoj Tanay Gulabchandra Caste Agrawal
			267/7	Private	Plat	0.033	Smt. Aruna W/o Loesh Pandey Caste Brahman
			267/8	Private	Plat	0.004	Smt. Madhulta W/o Madan Gopal Mishra Caste Brahman
			266/1	Private	Unirrigated	0.061	Smt. Shila Tiwari D/o Shivsevak Mishra or Renu W/o Rajesh Tiwari D/o Ramniwas Shukla
			294/1	Private	Irrigated	0.096	Smt. Kusum W/o Ramsiya Gautam
			294/2	Private	Irrigated	0.260	Uma Pratap Singh Rakesh Singh S/o Lakshaman Singh
			294/3	Private	Irrigated	0.095	Satyadev S/o Jagat Pati Urmaliya
			273/2	Private	Irrigated	0.047	Ramprakash Tanay Lalbihari Caste Bramhan
			273/3	Private	Irrigated	0.047	Ramprakash Tanay Lalbihari Caste Bramhan
			293	Private	Irrigated	0.215	Smt. Chhib Kumari W/o Let. Lal Singh Rabendra S/o Lal Singh Smt. Gyarni W/o Let. Ashok Singh Vrishketu Sumit S/o Ashok Singh

			292	Private	Irrigated	0.207	Ramlakhan S/o Ram Kripal Sarla Bhabu Pujiya Ramkripal Ramroop Or Anil S/o Shyam Lal Brahman
			291	Private	Irrigated	0.240	Ramlakhan S/o Ram Kripal Sarla Bhabu Pujiya Ramkripal Ramroop Or Anil S/o Shyam Lal Brahman
			290	Private	House	0.015	Smt. Indra Shukla W/o Ashok Shukla
			300/1/1	Private	Unirrigated	0.020	Rakesh Kumar S/o Ramji Chadda
			351	Private	Irrigated	0.150	Smt. Rma Devi W/o Vijay Bahadur Soni
			411/1	Private	Plat	0.076	Satrudhan Singh S/o Lal Mani Singh
			411/4	Private	Plat	0.045	Poonam Gaoutam W/o Shivanand Gaoutam Caste Bramhan
			411/5	Private	Plat	0.022	Smt. Manjulta W/o Pradip Kumar Tripathi Caste Brahman
			411/6	Private	Plat	0.097	Smt. Vidya Singh W/o Jaibhan Singh Parihar
			411/7	Private	Plat	0.024	Smt. Vibha W/o Neerav Dexit Caste Bramhan
			411/8	Private	Plat	0.039	Jaibhan Singh S/o Ugrasen Singh Parihar
			411/16	Private	Plat	0.009	Smt. Mithilesh W/o Gunnidhan Gautam Caste Brahman
			411/18	Private	Plat	0.009	Smt. Sangita Singh W/o C. Raman Singh
			411/19	Private	Plat	0.011	Rakesh Dutta S/o Madhusudan Shukla Or. Jwala Prasad S/o Jagdish Prasad Pandey
			411/14	Private	Plat	0.005	Balendra S/o Munnilal Mishra
			411/10	Private	Plat	0.006	Smt. Madhu W/o Rajanaiya Duwedi
			411/11	Private	Plat	0.009	Aakash S/o Manoj Kumar Agrwal
			411/12	Private	Plat	0.006	Smt. Saroj W/o Aswani Tiwari
			411/15	Private	Plat	0.008	Aakash S/o Manoj Kumar Agrwal
			411/13	Private	Plat	0.004	Smt. Surekha W/o Suresh Kumar
			339/2	Private	Irrigated	0.020	Smt. Meera W/o Pramod Gautam
			412/1/1	Private	Irrigated	0.205	Smt. Krishna Devi W/o Let. Narwada Prasad Tiwari Dinesh Prasad Yogesh Prasad Umesh Prasad S/o Lat. Narwada Prasad Tiwari

				412/1/2	Private	Irrigated	0.460	Smt. Shobhna Jain W/o Chakrashar Kumar Jain Smt. Pratima Jain W/o Pravin Kumari Jain
				409/2	Private	Unirrigated	0.223	Ramasray S/o Ramvishal Tiwari
				413	Private	Paar	0.308	Rajesh Kumar S/o Ramlakhan Dwivedi Caste Bramhan
				414	Private	Paar	0.236	Rajesh Kumar S/o Ramlakhan Dwivedi Caste Bramhan
				406	Private	Unirrigated	0.365	Basant Lal S/o Ramhit Soni
		Sukla		7	Private	Irrigated	0.372	Smt. Renu Tiwari W/o Rajesh Kumar Tiwari
				2/414	Private	Irrigated	0.089	Kripal Singh S/o Jagatdev Singh
				5/2	Private	Irrigated	0.192	Samar Bahadur Singh S/o Kashi Singh
				4	Private	Irrigated	0.502	Kripal Singh S/o Jagatdev Singh
				2/4/4	Private	Irrigated	0.030	Kripal Singh S/o Jagatdev Singh
				15/416/1	Private	Irrigated	0.050	Rajesh Chaurasiya S/o Shivprasad Chaurasiya
				20	Private	Irrigated	0.681	Smt. Vandna Sen D/o Swamideen Sen W/o Upendra Sen
				19	Private	Paar	0.045	Smt. Vandna Sen D/o Swamideen Sen W/o Upendra Sen
				18/2	Private	Irrigated	0.613	Shivkran S/o Bharat Bharat Kachhi
				22/1	Private	Irrigated	0.093	Kailash prasad Khare S/o Ramswoop Khare Caste Kayasth
				24/1	Private	Paar	0.013	Kailash prasad Khare S/o Ramswoop Khare Caste Kayasth
				15/415	Private	Irrigated	0.150	Kripal Singh S/o Jagatdev Singh
		Bamuraha		226/1/3	Private	Unirrigated	0.017	Devendra Singh S/o Satyanarayan Singh
				226/2/2	Private	Unirrigated	0.021	Surendra Singh S/o Ramkishor Verma
				226/2/3	Private	Unirrigated	0.033	Subhash Kuswaha S/o Shivram Kushwaha
				226/2/4	Private	Unirrigated	0.017	Rambahor Singh S/o Iswardin Singh
				226/3/1/2	Private	Unirrigated	0.017	Rambahor Singh S/o Iswardin Singh
				226/2/1/4/3/1	Private	Unirrigated	0.050	Smt. Savita W/o Sunil Kumar Gupta
				226/3/2/6	Private	Unirrigated	0.065	Smt. Guddi W/o Jairam Tiwari

226/4/5	Private	Unirrigated	0.023	Ram Autar S/o Rammilan Kushwaha
226/3/1 /3	Private	Unirrigated	0.010	Puspendra Singh S/o Satynarayan Singh
226/3/1 /4	Private	Unirrigated	0.005	Gita Devi W/o Satynarayan Singh
226/3/1 /5	Private	Unirrigated	0.044	Smt. Meera Vishkarma W/o R%amprasad Vishakarma
226/2/1 4/3/2	Private	Unirrigated	0.011	Smt. Sangita W/o Dwarika Prasad Gupta
226/3/2 /15	Private	Unirrigated	0.047	Smt. Aasha Devi W/o Rajendra Gupta
226/3/2 /14	Private	Unirrigated	0.018	Mahendra Kuamr Saukhi Lal Gupta
226/2/5	Private	Unirrigated	0.018	Usa Tiwari W/o Yagyanarayan Tiwari
226/2/1 3	Private	Unirrigated	0.016	Pawan Gupta S/o Narayan PD. Gupta
226/4/2 0	Private	Unirrigated	0.014	Satynarayan Gupta S/o Mohan Lal Gupta
226/4/2 1	Private	Unirrigated	0.014	Durgesh Kumar S/o Mohan Lal Gupta
226/4/2 2	Private	Unirrigated	0.018	Smt. Shakuntla Ojha W/o Rajendra Prasad Ojha
226/4/2 3	Private	Unirrigated	0.028	Rajiv Lochan Rameswer Prasad Duwedi
226/4/2 7	Private	Unirrigated	0.015	Vivek S/o Ramdin Gupta
226/4/2 8	Private	Unirrigated	0.008	Kamlesh Gupta S/o Baboo Lal Gupta
226/4/7	Private	Unirrigated	0.018	Shantanu Kumar S/o Sunil Kumar Singh
226/2/1 4/6	Private	Unirrigated	0.009	Dinesh Kumar S/o Balmik Gupta
226/4/1 1	Private	Unirrigated	0.016	Ramcharan S/o BaijnaTh Gupta
226/2/1 4/14	Private	Unirrigated	0.023	Ankush Rochalani S/o Ashok Kumar
226/3/2 /16	Private	Unirrigated	0.014	Balmik S/o Bhakwat Prasad Gupta
226/4/1 6	Private	Unirrigated	0.030	Pradip Sharma S/o Narayan Prasad Sharma
226/4/9	Private	Unirrigated	0.023	Rajkumari Duwedi S/o Rajnish Duwedi
226/2/1 4/10	Private	Unirrigated	0.018	Ayoddhya Singh S/o Rammilan Singh Patel
226/2/1 9	Private	Unirrigated	0.018	Jitendra Singh S/o Sudama Prasad Soni
226/2/1 4/1	Private	Unirrigated	0.051	Krishan Kumar Singh S/o Raghranj Singh

226/3/2/1	Private	Unirrigated	0.100	Hanuman Prasad S/o Rambahori Gupta Or Lakhan Lal S/o Shyam Sunder Patel
216/1	Private	Unirrigated	0.139	Satyanarayan Singh S/o Sampat Singh Sa. Deh
216/2/1	Private	Unirrigated	0.023	Hanuman Prasad Gupta S/o Rambahori Gupta
216/2/2	Private	Unirrigated	0.021	Satya Narayan S/o Badri Prasad Soni
216/2/3	Private	Unirrigated	0.021	Ramprakash S/o Soni Lal Soni
216/3	Private	Unirrigated	0.014	Kashish W/o Shanker Tilwani
216/4	Private	Unirrigated	0.018	Rajkumar S/o Ramkhelawan Verma Jabalpur
216/1 अंश	Private	Unirrigated	0.020	Santosh S/o Aanant Ram Kushwaha
216/1 अंश	Private	Unirrigated	0.033	Prabha W/o Santosh Kushwaha
215	Private	Unirrigated	0.008	Satyanarayan Singh S/o Sampat Singh Sa. Deh
214	Private	Unirrigated Med	0.025	Satyanarayan Singh S/o Sampat Singh Sa. Deh
213/8	Private	Unirrigated	0.038	Ravita Begam W/o Slam Beg
213/9	Private	Unirrigated	0.018	Rajendra Prasad S/o Ganesh Prasad Kushwaha Sa. Shukla
213/10	Private	Unirrigated	0.028	Shiv Nath S/o Gaiwi Nath Kushwaha
213/11	Private	Unirrigated	0.029	Rambihari S/o Rampati Prasad Mishra
213/12	Private	Unirrigated	0.013	Rakesh Kumar S/o Thakur Prasad Shukla
213/13	Private	Unirrigated	0.015	Ramsiya S/o Sant Prasad Gautam
213/5	Private	Unirrigated	0.018	Aashish Pratap S/o Bansh Bahadur Singh Visen
213/6	Private	Unirrigated	0.021	Vijay Kumar S/o Kedar Nath Shahu
213/7	Private	Unirrigated	0.012	Sunil Kumar S/o Jugul Kisho Gupta
213/14	Private	Unirrigated	0.015	Ramkali W/o Mahesh Prasad Gupta
213/15	Private	Unirrigated	0.015	Devikinandan S/o Ganga Prasad Mishra
213/16	Private	Unirrigated	0.011	Rakesh Singh S/o Rameswer Singh Tiwari
213/1	Private	Unirrigated	0.236	Satyanarayan Singh S/o Sampat Singh Sa. Deh

			213/17	Private	Unirrigated	0.017	Smt. Nirmla Mishra W/o Subhash Chandra Mishra
			213/3	Private	Unirrigated	0.018	Smt. Krishna Singh W/o Padmdhar Singh
			213/4	Private	Unirrigated	0.038	Smt. Gayatri Singh W/o K.p. Singh Parihar
			213/19	Private	Unirrigated	0.010	Baboolal S/o Ramsajeevan Verma
			210	Private	Irrigated	0.135	Satyanarayan Singh S/o Sampat Singh Sa. Deh
			208	Private	Med	0.024	Kamla Singh W/o Ramsharan Singh Hanuman Singh Krishan Pal Singh Virendra Singh Dhirendra Singh Sukhendra Singh S/o Ramsharan Singh Ramradhau Singh S/o Rambihari Singh
			207	Private	Irrigated	0.128	Satyanarayan Singh S/o Sampat Singh Sa. Deh
			195	Private	Unirrigated	0.037	Kamla Singh W/o Ramsharan Singh Hanuman Singh Krishan Pal Singh Virendra Singh Dhirendra Singh Sukhendra Singh S/o Ramsharan Singh Ramradhau Singh S/o Rambihari Singh
			196	Private	Unirrigated	0.351	Mu. Dhanpat W/o Dadan Singh Sa. Deh
			197	Private	Unirrigated	0.207	Smt. Chandrawati W/o Lalla Singh Rajendra Singh Lalla Singh Rajkishor Singh Ramsewak Singh
			86/1	Private	Unirrigated	0.187	Smt. Vimlesh Singh W/o Rajesh Singh Baghel
			86/2	Private	Irrigated	0.023	Aambuj Singh S/o Brijesh Singh Baghel
			85	Private	Irrigated	0.182	Kamla Singh W/o Ramsharan Singh Hanuman Singh Krishan Pal Singh Virendra Singh Dhirendra Singh Sukhendra Singh S/o Ramsharan Singh Ramradhau Singh S/o Rambihari Singh
			76	Private	Irrigated	0.006	Kamla Singh W/o Ramsharan Singh Hanuman Singh Krishan Pal Singh Virendra Singh Dhirendra Singh Sukhendra Singh S/o Ramsharan Singh Ramradhau Singh S/o Rambihari Singh

				84	Private	Unirrigated	0.040	Kamla Singh W/o Ramsharan Singh Hanuman Singh Krishan Pal Singh Virendra Singh Dhirendra Singh Sukhendra Singh S/o Ramsharan Singh Ramradhau Singh S/o Rambihari Singh
				88/273	Private	Irrigated	0.052	Kamla Singh W/o Ramsharan Singh Hanuman Singh Krishan Pal Singh Virendra Singh Dhirendra Singh Sukhendra Singh S/o Ramsharan Singh Ramradhau Singh S/o Rambihari Singh
				51/1	Private	Unirrigated	0.294	Smt. Shyama Singh W/o Narendra Singh Shavnam Shiwanki D/o Narendra Singh Caste Baghel
				48/1	Private	Irrigated	0.048	Bihari Lal Dwarika S/o Ramsipahi Kachhi Sa. Bamurha
				48/2	Private	Irrigated	0.238	Bihari Lal Dwarika S/o Ramsipahi Kachhi Sa. Bamurha
				48/3	Private	Irrigated	0.020	Dwarika S/o Ramsipahi Kachhi
				48/1	Private	Irrigated	0.517	Bihari Lal Dwarika S/o Ramsipahi Kachhi Sa. Bamurha
				48/2	Private	Irrigated	0.190	Dwarika S/o Ramsipahi Kachhi
				97/1	Private	Unirrigated	0.015	Mohan Lal S/o Jagannath Nai Caste Nai
				97/2	Private	Unirrigated	0.019	Parwati W/o Rajendra Sen
				97/3	Private	Unirrigated	0.022	Jaymangal Singh S/o Ramkripal Singh Jaibhan Singh S/o Sampat Singh
				97/4	Private	Unirrigated	0.045	Chhote Lal S/o Visheshar Patel
				97/5	Private	Unirrigated	0.022	Rajnish S/o Ramdev Verma
				97/6	Private	Unirrigated	0.022	Ramnarayan S/o Ramsajivan Bagri
				97/7	Private	Unirrigated	0.017	Smt. Aasha Devi W/o Avadh Sharan Tripathi
				97/8	Private	Unirrigated	0.011	Ramanad S/o Mahesh Das Pandey
				97/9	Private	Unirrigated	0.011	Rajesh Kumar S/o Ramsewak Pandey
				97/10	Private	Unirrigated	0.021	Jagmohan S/o Gulab Singh
				96/278/ 1	Private	Unirrigated	0.033	Natthu Lal S/o Jagannath Nai Caste Nai
				96/1/2 /2	Private	Unirrigated	0.012	Sunil Kumar S/o Baldev Prasad Gupta

	96/1/2/3	Private	Unirrigated	0.016	Hanuman Prasad S/o Rambahori Gupta
	96/1/2/4	Private	Unirrigated	0.032	Mahesh S/o Baijnath Gupta
	96/1/2/6	Private	Unirrigated	0.009	Lakhan Lal Patel S/o Shyam Sunder Patel Dhawari
	96/1/2/1	Private	Unirrigated	0.043	Mahesh Singh S/o Chandrika Singh
	96/1/1	Private	Unirrigated	0.015	Smt. Shyama Singh W/o Narendra Singh
	96/2/1	Private	Unirrigated	0.023	Smt. Raj Kumari Singh W/o Manmohan Singh Kundhari
	95/1	Private	Unirrigated	0.032	Dinesh Singh S/o Chandri Singh
	95/2/1	Private	Unirrigated	0.021	Mahesh Singh S/o Chandrika Singh
	95/2/2	Private	Unirrigated	0.020	Sunita Gupta S/o Baldev Prasad Gupta
	52/4	Private	Unirrigated	0.008	Aambuj Singh S/o Brijesh Singh Baghel
	92	Private	Irrigated	0.210	Krishan Pratap Singh S/o Manmohan Singh Sant Bhan Singh S/o Ram Prasad Singh Shushila Devi W/o Chhote Lal Singh Guru Baksh Singh Lalbahadur Singh Govindnarayan S/o Murli Singh Mu. Shanti Devi W/o Radhika Singh Hira Singh Lakshaman Singh Balmik Singh S/o Radhika Singh
	96/274/2	Private	Unirrigated	0.107	Mohanlal S/o Jagannath Nai Caste Nai
	76/2/1	Private	Unirrigated	0.913	Krishan Kumar Singh S/o Raghranj Singh
Ghurdang	76/1/11/2	Private	Unirrigated	0.009	Smt. Somwati W/o Sarda Prasad Gupta Caste Gupta.
	76/1/11/3	Private	Unirrigated	0.009	Vinod Kumar Duwedi S/o Shambhu Prasad Duwedi Caste Brahman Sa. Deh
	76/1/11/4	Private	Unirrigated	0.009	Ramesh Soni S/o Jagannath Prasad Soni Caste Sonar Sa. Sidhi
	76/1/11/5	Private	Unirrigated	0.009	Ashok Kumar S/o Mangal Prasad Kuswaha Jhalwar
	76/1/11/6	Private	Unirrigated	0.050	Ajay S/o Awadh Kishor Agrawal Maihar
	76/1/11/15	Private	Unirrigated	0.009	Smt. Arti W/o Ritesh Kumar Soni
	76/1/11/16	Private	Unirrigated	0.009	Smt. Prabha Soni W/o Rajkumari Soni Caste Soni Hathi

			76/2/14	Private	Unirrigated	0.018	Smt. Shiv Kumari W/o Raju Gupta Sa. Satna
			76/2/21	Private	Unirrigated	0.028	Smt. Shushila W/o Shiv Prasad Soni Sa. Satna
			76/1/13	Private	Unirrigated	0.009	Smt. Bharni W/o Ravishanker Gupta Sa. Amber
			76/2/11	Private	Unirrigated	0.037	Smt. Kiran W/o Vinod Kumar Gupta Sa. Deh
			76/2/32	Private	Unirrigated	0.033	Jagat Dev S/o Brindawan Singh Sa. Kolganwa
			76/2/33	Private	Unirrigated	0.033	Smt. Keshakali W/o Jagat Dev Singh Sa. Satana
			2/2/2	Private	Irrigated	0.144	Smt. Prabha Singh Raghuraj Singh
			2/2/3	Private	Unirrigated	0.036	Nimesh Garga S/o Sarad Garag Jawahar Nagar Satna
			2/2/4	Private	Unirrigated	0.023	Pankaj Kumar S/o Let. Mathura Prasad Patel
			2/2/5	Private	Unirrigated	0.036	Pramod Kumar Shukal S/on Viswambhar Pd. Shukla
			2/2/6	Private	Unirrigated	0.036	Smt. Seema Singh W/o Nishant Pratap Singh Sa. Semri
			2/2/7	Private	Unirrigated	0.036	Kamal Singh S/o Guru Prasad Singh Sa. Ghurdang
			2/2/8	Private	Unirrigated	0.036	Rajan Singh S/o Chhote Lal Singh Sa. Deh
			3/1/1	Private	Unirrigated	0.008	Lalua S/o Anusuiya Chamar Caste Sa. Deh
			3/1/2	Private	Unirrigated	0.037	Hanuman Prasad Gupta S/o Rambihari Gupta Bharhut Nagar Satna
			3/1/3	Private	Unirrigated	0.047	Aashish Kumar S/o Hanuman Gupta
			3/2/1	Private	Unirrigated	0.122	Mathura S/o Anusuiya Chmar Caste Chmar
			3/2/2	Private	Unirrigated	0.033	Ajay Bahadur Singh S/o Gyanbahadur Singh Ghurdang
			3/2/3	Private	Unirrigated	0.033	Anil Pratap Singh S/o Chhotelal Singh Sa. Ghurdang
			3/2/4	Private	Unirrigated	0.023	Nagendra Singh S/o Jageswer Singh Sa. Puraini
			3/2/5	Private	Unirrigated	0.033	Nishant Pratap Singh S/o Mahensra Pratap Singh Sa. Semri
			3/2/6	Private	Unirrigated	0.028	Sarad Kumar Singh S/o Nageswer Singh Sa. Rewa
			3/2/7	Private	Unirrigated	0.028	Shyam Charan Pandey S/o Ghanshyam Pandey Sa. Umari
			3/2/8	Private	Unirrigated	0.023	Virendra Singh S/o Jageswer Singh Sa. Puraini

		3/2/9	Private	Unirrigated	0.033	Smt. Rajkumari Singh W/o Motiman Singh Kundhri
		3/3/1	Private	Unirrigated	0.083	Bhaiya Lal S/o Anusuiya Chamar Caste Chamar
		3/3/2	Private	Unirrigated	0.037	Lakhan Lal Patel S/o Shyam Sunder Patel Dhawari
		3/3/3	Private	Unirrigated	0.047	Dhirendra Singh S/o Lakhan Lal Patel Sa. Dhawari
		3/3/4	Private	Unirrigated	0.028	Shivnarayan Singh S/o Vansh Gopal Singh Dhawari
		3/3/5	Private	Unirrigated	0.037	Ramlakhan Singh S/o Shivbalak Singh Sa. Itma Nadi Teer
		3/3/6	Private	Unirrigated	0.030	Sangam Lal Patel S/o Bala Prasad Patel Sa. Dhawari
		3/3/7	Private	Unirrigated	0.030	Sailendra Singh S/o Tulsi Prasad Singh Ghurdang
		4	Private	Unirrigated	0.364	Smt. Prabha Singh W/o Raghuraj Singh Ghurdang
Bela Bhatiya	413/1/क	Private	Irrigated	0.174	Achchhe Lal S/o Magali Dohar	
	413/1/ख	Private	Irrigated	0.072	Ramadhar S/o Mangali Dohar	
	410	Private	Irrigated	0.119	Smt. Meera Kushwaha W/o Ramsiya Kushawaha	
	411	Private	Irrigated	0.034	Smt. Meera Kushwaha W/o Ramsiya Kushawaha	
	402/1	Private	Unirrigated	0.004	Achchhe Lal S/o Magali Dohar	
	402/2	Private	Unirrigated	0.034	Smt. Munauva W/o Brijwashi Premchandra Shivprasad Pachiniya S/o Brijwashi Dohar	
	402/3	Private	Unirrigated	0.041	Moolchandra S/o Bhaiya Lal Dohar	
	401/1/क	Private	Irrigated	0.053	Achchhe Lal S/o Mangali Dohar Caste Sa. Deh.	
	401/1/1.ख	Private	Irrigated	0.023	Ramadhar S/o Mangali Dohar	
	401/2	Private	Irrigated	0.120	Smt. Munauva W/o Brijwashi Premchandra Shivprasad Pachiniya S/o Brijwashi Dohar	
	401/3	Private	Irrigated	0.163	Moolchandra S/o Bhaiyalal Dohar Caste Dohar	
	400	Private	Unirrigated	0.042	Smt. Premlata Avasthi W/o Prem Shanker Avasthi	
	395	Private	Irrigated	0.880	Smt. Premlata Avasthi W/o Prem Shanker Avasthi	
	394	Private	Unirrigated	0.058	Smt. Premlata Avasthi W/o Prem Shanker Avasthi	
	343/448	Private	Unirrigated	0.028	Smt. Premlata Avasthi W/o Prem Shanker Avasthi	

			248 / 1	Private	Unirrigated	0.006	Smt. Meera Bai W/o Swami Din Natthau S/o Swami Din Sailendra Kumar S/o Swami Din Nava. Vali. Mather Meera Bai W/o Swami Din Geeta D/o Swami Din Soni
			389 / 1	Private	Irrigated	0.044	Birendra Kumar Urf Lallan S/o Ramlal Brahman
			389 / 2	Private	Irrigated	0.080	Shalikram S/o Ramlal Brahman
			389 / 3	Private	Irrigated	0.080	Rajabhaiya S/o Ramlal Brahman
			385 / 1 / ख / 2	Private	Unirrigated	0.015	Lakshman Prasad S/o Ganga Prasad Kushwaha Caste Kachhi
			386 / 1	Private	Unirrigated	0.046	Shalikram Rajabhaiya S/o Ramlal Brahman Smt. Ramrati W/o Virendra Prasad Caste Brahman
			388	Private	Unirrigated	0.119	Ram Ashare S/o Sooraj Deen Caste Kori
			387	Private	Unirrigated	0.069	Ghanpat Lal S/o Phulku Kushwaha
			249	Private	Irrigated	0.165	Ghanpat Lal S/o Phulku Kushwaha
			252 / 1	Private	Irrigated	0.061	Aishwar Deen S/o Ramniwash Kushwah Rukmani Raman Jamuna Prasad Na. Vali. Sar. Bhai Aishwardeen S/o Ramniwas Kushwaha Caste Kachi
			250	Private	Irrigated	0.559	Ghanpat Lal S/o Phulku Kushwaha
			251	Private	Irrigated	0.151	Ghanpat Lal S/o Phulku Kushwaha
			239	Private	Irrigated	0.189	Ghanpat Lal S/o Phulku Kushwaha
			238 / 1	Private	Unirrigated	0.065	Birendra Kumar Urf Lallan S/o Ramlal Brahman
			238 / 2	Private	Unirrigated	0.065	Shalikram S/o Ramlal Brahman
			238 / 3	Private	Unirrigated	0.065	Raja Bhaiya S/o Ramlal Brahman
			237 / 2	Private	Unirrigated	0.079	Ramkesh S/o Jamuna Prasad Brasad
			235 / 1 / क	Private	Unirrigated	0.030	Men. Sarveswari Agro Pravate Limited Satna
			234 / 1	Private	Unirrigated	0.305	Men. Sarveswari Agro Pravate Limited Satna
			228 / 1 / क	Private	Unirrigated	0.100	Mensarsa Joot And Industries Limited Satna Cement Varks Satna
			228 / 2	Private	Unirrigated	0.176	Mensarsa Joot And Industries Limited Satna Cement Varks Satna

				226/1	Private	Unirrigated	0.056	Ganesh Prasad S/o Pancha Kushwaha Caste Kachhi
				222/2/ख	Private	Unirrigated	0.004	Mensarsa Joot And Industries Limited Satna Cement Varks Satna
				222/1/ख	Private	Unirrigated	0.214	Ganesh prasad S/o Pancha Kushwaha
				222/2/क /1/क	Private	Unirrigated	0.020	Heeraman S/o Bajnath Brahman
				137	Private	Irrigated	0.225	Smt. Sarla Singh W/o Jaidayal Singh Sant Nagar
				136/1	Private	Irrigated	1.215	Smt. Prabha Singh W/o Raghuraj Singh Krishan Kumar Singh Pushpraj Singh S/o Raghuraj Singh
				49/428/ 2	Private	Unirrigated	0.045	Baboo Lal S/o Mata Din Chamar
				49/427/ 2	Private	Unirrigated	0.075	Baboo Lal S/o Mata Din Chamar
			Badkhar	410	Private	Irrigated	0.306	Hari Prasad Ramgopal S/o Onkar Prasad 3/4 Vijay Kumar S/o Ramruchi Brahman 1/4 Sa. Birhuli
				412	Private	Unirrigated	0.010	Ganga Prasad S/o Shyam Sunder Brahman
				415	Private	Unirrigated	0.259	Ganga Prasad S/o Shyam Sunder Brahman
				414	Private	Paar	0.033	Arvind Kumar Brijshanker S/o Ramswaroop
				413	Private	Unirrigated	0.432	Arvind Kumar Brijshanker S/o Ramswaroop
				387	Private	Unirrigated	0.045	Makholi S/o Jugraj Kori
				388	Private	Unirrigated	0.108	Jankiya S/o Dadiyan Gadariya Badkhar
				390	Private	Unirrigated	0.332	Brijshankar Urf. Hari Prasad Tanay Ramswroop Caste Bramhan
				389	Private	Unirrigated	0.508	Jankiya S/o Dadiyan Gadariya Badkhar
				392	Private	Unirrigated	0.191	Banshroop Tanay Ramdas Kachhi Caste Kachhi
				377/1	Private	Unirrigated	0.014	Ramesh Prasad Tanay Ramsevak Caste Bramhan
				376	Private	Irrigated	0.217	Jankiya S/o Dadiyan Gadariya Badkhar
				375	Private	Irrigated	0.083	Bansroop Tanay Ramdas Caste Kachhi
				373/2	Private	Med	0.004	Balvinder Singh S/o Surjit Singh
				373/3	Private	Med	0.016	Rakishor S/o Ramchandra Gadariya
				373/4	Private	Med	0.016	Ramkripal S/o Ramchandra Gadariya

			373/5	Private	Med	0.013	Darbari Lal S/o Ramchandra Gadariya
			372/1	Private	Irrigated	0.020	Chhaikaudilal S/o Ramchandra Gadariya
			372/2	Private	Irrigated	0.138	Balvinder Singh S/o Surjit Singh
			372/3	Private	Irrigated	0.196	Ramkishor S/o Ramchandra Gadariya
			372/4	Private	Irrigated	0.242	Ramkripal S/o Ramchandra Gadariya
			372/5	Private	Irrigated	0.030	Darbari Lal S/o Ramchandra Gadariya
			357	Private	Irrigated	0.189	Jankiya S/o Dadiyan Gadariya Badkhar
			362/627	Private	Irrigated	0.077	Ghanshyam Das Ramsewak Brahman
			358/1	Private	Irrigated	0.036	Mohan S/o Chaina Gadariya
			358/2	Private	Irrigated	0.252	Sudin S/o Balua Gadariya
			360	Private	Irrigated	0.075	Santosh Ramnivash Rajeev S/o Rampfal Lohar
			361/1/5	Private	Irrigated	0.277	Santosh Ramnivash Rajeev S/o Rampfal Lohar
			317/2/1	Private	Paar	0.064	Rakesh Singh S/o Jitendra Singh Caste Baghel
			318/1 क	Private	Irrigated	0.101	Smt. Rajwati Urf Rani Singh D/o Baboolal Singh
			318/1/2	Private	Irrigated	0.008	Ganga Din S/o Buddhasen Pal
			318/1/7/1	Private	Irrigated	0.154	Rakesh Singh S/o Jitendra Singh Caste Baghel
			318/1/7/2/1	Private	Irrigated	0.016	Smt. Rekha Kapadi w/o Sanjay Kapdi Caste Kapdi
			318/1/7/2/3	Private	Irrigated	0.031	Manish Tiwari S/o Tulsi Das Tiwari
			318/1/7/2/2	Private	Irrigated	0.008	Ramviswash Singh S/o B.P. Singh
			318/1/7/2/4	Private	Irrigated	0.008	Puspendra Singh S/o Shivadhar Singh
			318/1/7/3/1	Private	Irrigated	0.202	Santosh Duwedi W/o Arun Kumar Duwedi
			318/1/7/3/2	Private	Irrigated	0.135	Smt. Pawan Singh W/o Rakesh Singh
			318/1/7/2/5	Private	Irrigated	0.693	Aanand Pandey S/o Ramsipahi Pandey Sa. Satna
			318/1/ख	Private	Irrigated	0.431	Aanand Pandey S/o Ramsipahi Pandey Sa. Satna

				318/1/7/4	Private	Irrigated	0.364	Smt. Rekha Kapdi W/o Sanjay Kapdi Caste Kapdi
				276/1	Private	Med	0.034	Vikas Kumar S/o Yagy Narayan Or Gulab Bai D/o Chhote Lal Brahman
				235/1	Private	Irrigated	0.306	Parashuram S/o Hira Lal Brahman Or Gulab Bai D/o Chhote Lal Brahman
				235/2	Private	Irrigated	0.036	Sunil Kumar Tanay Rambhuman Tiwari
				237	Private	Irrigated	0.157	Smt. Nisha Goyal W/o Naresh Goyal
				237/661/1	Private	Irrigated	0.024	Smt. Nisha Goyal W/o Naresh Goyal
				231/1/1	Private	Unirrigated	0.090	Sanjay Kumar Singh Tanay Shyam Narayan Singh Kolganwa
				231/1/2	Private	Unirrigated	0.149	Sanjay Kumar Singh Tanay Shyam Narayan Singh Kolganwa
				231/2	Private	Unirrigated		Sanjay Kumar Singh Tanay Shyam Narayan Singh Kolganwa
				227/1/1	Private	Unirrigated	0.012	Lalwati S/o Bhagwan Din Dohar Badkhar
				227/2/2	Private	Unirrigated	0.055	Rohit Agrawal S/o Balmukund Agrawal Caste Agrawal
				227/2/3	Private	Unirrigated	0.060	Shankar Kapadi S/o Tharumal Kapadi
				228/1	Private	Unirrigated	0.120	Lalwati S/o Bhagwan Din Dohar Badkhar
				228/2	Private	Unirrigated	0.037	Smt. Parwati Devi W/o Subedar Singh Yadav
				228/3	Private	Unirrigated	0.032	Atul Tiwari S/o S.P. Tiwari
				228/4	Private	Unirrigated	0.015	Smt. Kiran W/o Yaswant Singh Sengar
				228/5/1	Private	Unirrigated	0.059	Ramjanam S/o Indradev Yadev
				228/7	Private	Unirrigated	0.018	Sumit Chourasiya S/o Hemchandra Chourasiya
				228/8	Private	Unirrigated	0.015	Smt. Prgya W/o Sanjay Bodse
				228/10	Private	Unirrigated	0.008	Santosh Kumar S/o Rajaram Tiwari Caste Bramhan
				228/14	Private	Unirrigated	0.018	Smt. Suman Maurya W/o Sunil Kumar Maurya
				228/15	Private	Unirrigated	0.017	Smt. Bandna W/o Arvind Kumar Nema
				228/17	Private	Unirrigated	0.020	Smt. Yasomati Varma W/o Shivsahar Varma

			228/16	Private	Unirrigated	0.017	Smt. Reeta Singh W/o Mahesh Singh
			228/19	Private	Unirrigated	0.010	Indrakali W/o Rajbahor Tiwari Mauganj
			228/21	Private	Unirrigated	0.030	Shanker S/o Tharumal Kapdi Sa. Deh
			228/22	Private	Unirrigated	0.015	Ravindra Singh S/o Srikant Singh Sa. Chhapra
			228/23	Private	Unirrigated	0.032	Smt. Saroj W/o Ramsarover Pandey
			229/1	Private	Unirrigated	0.052	Ramjanam S/o Indradev Yadev
			229/2/3	Private	Unirrigated	0.051	Amit Kumar W/o M.P. Pandey
			229/2/6	Private	Unirrigated	0.015	Smt. Saroj W/o Ramsarover Pandey
			229/2/7	Private	Unirrigated	0.012	Dinesh Kumar S/o Mohan Lal Mishra
			177	Private	Paar	0.050	Sunita S/o Ramvishal Kaushilya Molli Urf Munni Meena Urf Lakshminiya D/o Ramvishal Or Baboo Lal S/o Tulsi Ram Lodhi Sa. Deh
			663/170	Private	Unirrigated	0.596	Sunita S/o Ramvishal Kaushilya Molli Urf Munni Meena Urf Lakshminiya D/o Ramvishal Or Baboo Lal S/o Tulsi Ram Lodhi Sa. Deh
			170	Private	Unirrigated	0.019	Sunita S/o Ramvishal Kaushilya Molli Urf Munni Meena Urf Lakshminiya D/o Ramvishal Or Baboo Lal S/o Tulsi Ram Lodhi Sa. Deh
			169	Private	Unirrigated	0.036	Sunita S/o Ramvishal Kaushilya Molli Urf Munni Meena Urf Lakshminiya D/o Ramvishal Or Baboo Lal S/o Tulsi Ram Lodhi Sa. Deh
			168	Private	Unirrigated	0.033	Sunita S/o Ramvishal Kaushilya Molli Urf Munni Meena Urf Lakshminiya D/o Ramvishal Or Baboo Lal S/o Tulsi Ram Lodhi Sa. Deh
			167	Private	Unirrigated	0.026	Sunita S/o Ramvishal Kaushilya Molli Urf Munni Meena Urf Lakshminiya D/o Ramvishal Or Baboo Lal S/o Tulsi Ram Lodhi Sa. Deh

			166	Private	Unirrigated	0.065	Sunita S/o Ramvishal Kaushilya Molli Urf Munni Meena Urf Lakshminiya D/o Ramvishal Or Baboo Lal S/o Tulsi Ram Lodhi Sa. Deh
			86/2/2 /1	Private	Unirrigated	0.029	Udabhan Singh S/o Rasunder Singh
			86/1/2	Private	Unirrigated		
			86/2/1 /2	Private	Unirrigated		
			86/1/1	Private	Unirrigated	0.057	Dharmendra S/o Ramsiya Kushwaha Satna
			86/625/ 2	Private	Unirrigated	0.015	Bhool Chandra S/o Bhaiya Lal Dohar Sa. Badkhar
			86/625/ 3/1	Private	Unirrigated	0.028	Smt. Meera Kushwaha W/o Ramsiya Kushawaha
			86/625/ 4/2	Private	Unirrigated	0.015	Siwaji Gupta S/o Chunni Lal Gupta Sa. Mankahri
			86/625/ 4/1	Private	Unirrigated	0.001	Smt. Meera W/o Ramsiya Kushwaha
			86/625/ 4/3	Private	Unirrigated	0.019	Smt. Aasha Devi W/o Rajesh Kumar Shukla
			86/625/ 4/4	Private	Unirrigated	0.018	Smt. Saroj W/o Shyamcharan Payasi
			85/2/4	Private	Unirrigated	0.001	Brijesh Kumar S/o Suryabhan Singh Sa. Sonbarsh
			85/2/5	Private	Unirrigated	0.030	Anil Pradip S/o Ramsiya Gupta Machakhad
			85/2/7	Private	Unirrigated	0.001	Sailendra Singh S/o Babool Singh Sa. Deh.
			85/2/6	Private	Unirrigated	0.014	Sukhendra Singh Tejbhan Singh Daldal
			85/2/8	Private	Unirrigated	0.032	Bhupendra Singh S/o Bhushan Pipraha
			85/2/9	Private	Unirrigated	0.016	Mahendra Singh S/o Avadhsharan Singh Karan Singh S/o Bhaiya Lal Singh Caste Kurmi
			85/2/10	Private	Unirrigated	0.026	Smt. Panchwati W/o Ramadhar Singh Kurma
			85/1/2 /2	Private	Unirrigated	0.062	Indra Bhan Singh S/o Ramchere Singh Sa. Bharnuja
			85/1/2 /1	Private	Unirrigated	0.019	Jitendra S/o Madhusudan Duwedi
			90/17/4	Private	Unirrigated	0.006	Ramsohanwan Tanay Ajimuni Duwedi Satna
			90/22	Private	Unirrigated	0.005	Smt. Nirmala Singh W/o Sukhendra Singh
			90/18/5	Private	Unirrigated	0.012	Lakshmi Nath Singh S/o Ramlal Singh Siddharth Nagar Satna

			90/15	Private	Unirrigated	0.021	Lakshman Singh Puspendra Singh S/o Ramprakash Singh
			90/11/3	Private	Unirrigated	0.003	Om Prakash S/o Shanker Dutt Shukla Pratap Pur
			90/11/1	Private	Unirrigated	0.013	Uma Pandey W/o Ramayan Prasad Pandey Tihai
			90/1	Private	Unirrigated	0.056	Dharmendra S/o Ramsiya Kushwaha Satna
			91/1/क	Private	Irrigated	0.111	Achchhe Lal S/o Magali Dohar
			91/1/ख	Private	Irrigated	0.144	Ramadhar Tanay Mangali Dohar
			91/2/1	Private	Irrigated	0.180	Ramlakhan S/o Mohan Dohar Barabar
			91/2/2	Private	Irrigated	0.162	Bhaiya Lal S/o Mohan Dohar
			93	Private	Irrigated	0.076	Moolchandra S/o Bhaiyalal Dohar Caste Dohar Barabar
			94	Private	Irrigated	0.032	Mool Chandra S/o Bhaiya Lal Dohar Barabar
			95	Private	Unirrigated	0.113	Dharmendra S/o Ramsiya Kushwaha Satna
			96	Private	Unirrigated	0.011	Dharmendra S/o Ramsiya Kushwaha Satna
			83/1	Private	Paar	0.061	Rammilan Basrah No. 79
			83/3	Private	Paar	0.024	Rammilan Basrah No. 79
			97 / 2घ / 1	Private	Unirrigated	0.066	Moll Chandra S/o Bhaiya Lal Dohar Barabar
			71/1 ख	Private	Unirrigated	0.066	Krishan Pal Chaturvedi S/o Rambali Chaturvedi Dipak S/o Anjani Tripathi Sa. Satna
		Birahuli Kothar	811/1/क	Private	Irrigated, Aam -2	0.341	Suresh Prasad S/o Rewatiraman Mishra Caste Brahman
			811/1/ख	Private	Irrigated	0.470	Anjani Nandan S/o Rewatiraman Caste Brahman
			810	Private	Irrigated	0.047	Bhim Singh S/o Yogendra Singh Caste Baghel
			818	Private	Irrigated	0.478	Akhil Pratap Singh Tanay Bhim Singh Caste Baghel
			819/1/क	Private	Unirrigated Nahar Or Rasta	0.108	Rajendra Singh S/o Mohani Singh
			819/1/ख	Private	Irrigated	0.195	Sukhendra Singh Nagendra Singh S/o Mohan Singh Or Mohan Singh S/o Ramnarayan Singh
			819/2	Private	Irrigated	0.474	Puspendra Singh S/o Gyan Singh Caste Baghel

				820	Private	Irrigated	0.070	Shyam Kishor Kamal Kishor Dipak Kuamar S/o Ramkishor Kaushal Kishor Nawal Kishor Anil Kumar Atul Kumar Vipin Kumar S/o Raj Kishor Sri Krishan Jaikrishan S/o Ramkrishan Smt. Vimla W/o Roop Krishan Anoop S/o Sury Krishan Shushila W/o Hari Krishan Raj Malhotra SanjivMalhotra S/o Hari Krishan
				804 / 843 / 2	Private	Unirrigated	0.113	Sukhendra Singh Nagendra Singh S/o Mohan Singh Or Mohan Singh S/o Ramnarayan Singh
				825	Private	Paar	0.089	Mohan Singh S/o Ramnarayan Singh
				824	Private	Irrigated	0.224	Shyam Kishor Kamal Kishor Dipak Kuamar S/o Ramkishor Kaushal Kishor Nawal Kishor Anil Kumar Atul Kumar Vipin Kumar S/o Raj Kishor Sri Krishan Jaikrishan S/o Ramkrishan Smt. Vimla W/o Roop Krishan Anoop S/o Sury Krishan Shushila W/o Hari Krishan Raj Malhotra SanjivMalhotra S/o Hari Krishan
				826	Private	Irrigated	0.201	Shyam Kishor Kamal Kishor Dipak Kuamar S/o Ramkishor Kaushal Kishor Nawal Kishor Anil Kumar Atul Kumar Vipin Kumar S/o Raj Kishor Sri Krishan Jaikrishan S/o Ramkrishan Smt. Vimla W/o Roop Krishan Anoop S/o Sury Krishan Shushila W/o Hari Krishan Raj Malhotra SanjivMalhotra S/o Hari Krishan
				803 / 855	Private	Irrigated Canel	0.089	Shyam Kishor Kamal Kishor Dipak Kuamar S/o Ramkishor Kaushal Kishor Nawal Kishor Anil Kumar Atul Kumar Vipin Kumar S/o Raj Kishor Sri Krishan Jaikrishan S/o Ramkrishan Smt. Vimla W/o Roop Krishan Anoop S/o Sury Krishan Shushila W/o Hari Krishan Raj Malhotra SanjivMalhotra S/o Hari Krishan
		Murar		39	Private	Unirrigated Par	0.005	Mudul Singh W/o Aatmanand Singh Arun Singh S/o Aatmanand Singh
				03	Private	Irrigated	0.304	Lakshman Bachai Baboo Lal Ramkaran Jivan Lal S/o Chulbuliya Caste Nai

				102	Private	Paar	0.009	Lakshman Basha Baboo Lal Ramkumar Jivan Lal S/o Chulbuliya Caste Nai
				101	Private	Unirrigated	0.088	Mudul Singh W/o Aatmanand Singh Arun Singh S/o Aatmanand Singh
				100	Private	Irrigated	0.158	Jitendra Singh S/o Karam Veer Singh Sa.
				99	Private	Irrigated	0.220	Jitendra Singh S/o Karam Veer Singh Sa.
				40	Private	Irrigated	0.559	Jitendra Singh S/o Karam Veer Singh Sa.
				130	Private	Unirrigated	0.172	Jitendra Singh S/o Karam Veer Singh Sa.
				41	Private	Irrigated	0.026	Jitendra Singh S/o Karam Veer Singh Sa.
				37	Private	Irrigated Tubwel-1	0.197	Jitendra Singh S/o Karam Veer Singh Sa.
				36	Private	Irrigated	0.169	Jitendra Singh S/o Karam Veer Singh Sa.
				17	Private	Irrigated	0.152	Shivendra Singh S/o Satendra Singh
				18	Private	Irrigated Aam-1	0.200	Shivendra Singh S/o Satendra Singh
				19/1	Private	Abadi Unirrigated	0.065	Shivendra Singh S/o Satendra Singh
				19/2	Private	Abadi Unirrigated	0.006	Pusuwa S/o Maika Caste Kaul
				19/3	Private	Abadi Unirrigated	0.004	Darbariya Tanay Pusuwa Caste Kaul
				1	Private	Irrigated	0.209	Shyamkishor Kmal Kishore Deepakkumar S/o Ramkishore Khatri Kaushal Kishor Naval Kishor Anil Kumar Atul Kumar Vipin Kumar S/o Raj Kishore Sri Krishn Jaikrishn S/o Ramkrishn Khatri Vimla W/o Anoop S/o Roopkrishn Susheela W/o Harikrishn Khatri Raj Sanjeev S/o Harikrishn Khatri Caste Khatri
				2	Private	Irrigated	0.334	Shyamkishor Kmal Kishore Deepakkumar S/o Ramkishore Khatri Kaushal Kishor Naval Kishor Anil Kumar Atul Kumar Vipin Kumar S/o Raj Kishore Sri Krishn Jaikrishn S/o Ramkrishn Khatri Vimla W/o Anoop S/o Roopkrishn Susheela W/o Harikrishn Khatri Raj Sanjeev S/o Harikrishn Khatri Caste Khatri

				3	Private	Unirrigated	0.269	Shyamkishor Kinal Kishore Deepakkumar S/o Ramkishore Khatri Kaushal Kishor Naval Kishor Anil Kumar Atul Kumar Vipin Kumar S/o Raj Kishore Sri Krishn Jaikrishn S/o Ramkrishn Khatri Vimla W/o Anoop S/o Roopkrishn Susheela W/o Harikrishn Khatri Raj Sanjeev S/o Harikrishn Kharte Caste Khatri
			Sakariya	997 / 2	Private	Irrigated	0.543	Ramkishor S/o Arjun Kumhar
				998	Private	Med	0.035	Rabikaran Singh S/o Siya Sharan Singh
				999	Private	Irrigated	0.878	Rabikaran Singh S/o Siya Sharan Singh
				1000 / 1	Private	Med Aam-2	0.042	Smt. Keshkali W/o Ramkaran Ranjit Anil S/o Ramkaran Singh
				1000 / 2	Private	Med Aam-4	0.040	Smt. Suman W/o Ramkumar Caste Bramhan
				1000 / 3	Private	Med Neem-1	0.042	Smt. Pachuniya W/o MalKand Mallah
				1001 / 2	Private	Irrigated	0.099	Smt. Suman W/o Ramkumar Caste Bramhan
				1002 / 1	Private	Irrigated	0.160	Smt. Kesh Kali W/o Ramkaran Ranjit Anil S/o Ramkaran Singraha
				1002 / 2	Private	Irrigated	0.202	Smt. Suman W/o Ramkumar Caste Bramhan
				993 / 2 / 1	Private	Med	0.373	Bhima Singh S/o Yogendra Singh Caste Baghel
				993 / 2 / 2	Private	Med	0.190	Narendra Singh S/o Yogendra Singh
				992 / 1	Private	Irrigated	0.109	Ramsunder Jagdish Prasad S/o Gajadhar Shyam Sunder S/o Gajadhar Ramgarib S/o Ramsevak Sa. Deh Rahin Gaya Prasad S/o Ramsanehi Murtiyan Caste Brahman
				990 / 1	Private	Irrigated	0.109	Ramsunder Jagdish Prasad S/o Gajadhar Shyam Sunder S/o Gajadhar Ramgarib S/o Ramsevak Sa. Deh Rahin Gaya Prasad S/o Ramsanehi Murtiyan Caste Brahman
				991 / 2 / 2	Private	Irrigated	0.296	Narendra Singh S/o Yogendra Singh Caste Baghel
				985 / 2	Private	Irrigated Tubwel-1	0.248	Smt. Sandhya W/o Ganesh Prasad Sharda D/o Ganesh Prasad Nava. Sarmila Chhama Khushboo Antima D/o Ganesh Pd. Sar. Sharda D/o Ganesh Prasad Sa. Deh

				988/1	Private	Med Kahua-1 Mahua-1	0.045	Ratan Kumar S/o Girja Pd. Brahman
				987	Private	Irrigated	1.342	Ratan Kumar S/o Girja Pd. Mu. Saroj Widow Ramsujan Ambish S/o Ramsujan Brahman
				986	Private	Med	0.030	Ratan Kumar S/o Girja Pd. Mu. Saroj Widow Ramsujan Ambish S/o Ramsujan Brahman
				958	Private	Irrigated	0.458	Rannu Devi D/o Mangal Prasad Brahman
				955	Private	Med	0.042	Mukesh Kumar Srawan Kumar S/o Ramdhani Smt. Gayatri W/o Kamlesh Brahman
				956/1	Private	Irrigated	0.755	Mukesh Kumar Srawan Kumar S/o Ramdhani Smt. Gayatri W/o Kamlesh Brahman
				956/2	Private	Irrigated	0.121	Rannu Devi D/o Mangal Prasad Brahman
				957/2	Private	Med	0.047	Rannu Devi D/o Mangal Prasad Brahman
			Korahi	87/2	Private	Unirrigated	0.097	Sri Ram S/o Yadunath Prasad Brahman Sa. Deh
				88/1	Private	Irrigated Bor-1 Makan	0.527	Baboo Lal S/o Harshar Prasad Sharma Caste Sa. Sakariya
				89/1	Private	Unirrigated	0.144	Sri Ram S/o Yadunath Prasad Brahman Sa. Deh
				84/1ग	Private	Unirrigated	0.532	Sri Ram S/o Yadunath Prasad Brahman Sa. Deh
				84/2	Private	Unirrigated	0.730	Jitendra Rahul Dipak S/o Sunder Lal Sharma Sa. Kolganwa
				81/2	Private	Unirrigated Neem-1	0.069	Jitendra Rahul Dipak S/o Sunder Lal Sharma Sa. Kolganwa
				80/1क	Private	Irrigated	0.200	Manshukh Singh S/o Ramautar Singh Sa. Semariya Chauk Satna
				80/1ख	Private	Irrigated	0.279	Bhola S/o Ram Lal Kacher Sa. Madhavghrdh
				79/1/ख	Private	Irrigated	0.130	Bhola S/o Ram Lal Kacher Sa. Madhavghrdh
				79/2/1	Private	Irrigated	0.105	Jitedra Rahul Dipak S/o Sunder Lal Sharma Sa. Kolganwan Satna
				79/2/2	Private	Irrigated	0.080	Arvindra Singh S/o Sant Das Singh
				78/1	Private	Unirrigated Par	0.056	Bhola S/o Ram Lal Kacher Sa. Madhavghrdh
			Matehna	437/1	Private	Unirrigated	0.023	Mohan Singh S/o Ramlal Singh Sa. Deh

			436	Private	Unirrigated	0.024	Narendra Singh S/o Triveni Pratap Singh
			435	Private	Unirrigated	0.132	Balraj Jai Raj Sudha Nanda Sita Gita Rannu S/o Rajaram Mahapatra
			434	Private	Unirrigated	0.071	Narendra Singh S/o Triveni Pratap Singh
			429	Private	Unirrigated	0.273	Keshari Singh S/o Gajadhar Singh Kripal Pur
			428	Private	Unirrigated	0.179	Balraj Jai Raj Sudha Nanda Sita Gita Rannu S/o Rajaram Mahapatra
			426 / 1	Private	Unirrigated	0.032	Mohan Lal S/o Sudama Prasad Brahman
			426 / 2	Private	Unirrigated	0.338	Amit S/o Kawarmal Ramnami Ramkumar S/o K.L.Madhawani
			425	Private	Unirrigated	0.036	Ranjana Singh D/o Narendra Singh Matehna
			420	Private	Unirrigated	0.039	Om Prakash S/o Jaihind Prasad Caste Brahman
			419	Private	Unirrigated	0.078	Balvinder Singh S/o Surjit Singh
			418	Private	Unirrigated Aam-15	0.244	Balvinder Singh S/o Surjit Singh
			417	Private	Unirrigated	0.515	Om Prakash S/o Jaihind Prasad Caste Brahman
			402	Private	Irrigated	0.083	Vibhooti Bhushan Aashok Kumar Uma Kant Sri Kant S/o Jugul Kishor Mahapatra
			353	Private	Unirrigated	0.686	Balraj Jai Raj Sudha Nanda Sita Gita Rannu S/o Rajaram Mahapatra Sa. Deh
			354	Private	Unirrigated Nahar-0.032	0.012	Balvinder Singh S/o Surjit Singh
			355	Private	Unirrigated	0.019	Lahuriya S/o Munda Kaul
			357	Private	Unirrigated Par	0.033	Surendra Kumar Aashok Kumar S/o Brijnandan Prasad Sa. Madhavghardh
			358	Private	Unirrigated	0.155	Surendra Kumar Aashok Kumar S/o Brijnandan Prasad Sa. Madhavghardh
			359	Private	Unirrigated	0.118	Bhola Prasad Harvansh Gopi Prasad Gauri Shanker Rajbhan S/o Ramdev Sharma

				360/1	Private	Unirrigated	0.093	Mu. Chandra Kali Widow Sudarsan Prasad Santosh S/o Dilip Kumar Nava. Veena Uma Girja Shushila Durga Sarla Vitti Mamta Savita Pinki S/o Sudarsan Prasad 1/2 Hissa Mu. Krishan Kali Widow Rajkishor Bhagwat Prasad S/o Raj Kishor 1/2 Hissa Caste Brahman Sa. Madhavgardh
				360/2	Private	Unirrigated	0.016	Om Prakash S/o Jaihind Prasad Caste Brahman
				364/1	Private	Unirrigated Par	0.004	Chandra Sheshar S/o Sudama Pd. Brahman Madhavgardh
				365	Private	Unirrigated Par	0.012	Aashok Kumar S/o Jugul Kishor Brahman
				344	Private	Pond	0.272	Basanta Jageswer Ram Prasad S/o Kishanu Mallah Sa. Sakariya
				278/3	Private	Unirrigated Paar	0.073	Brijesh S/o Sudama Prasad Mahapatra
				280/3ख	Private	Unirrigated	0.050	Brijesh S/o Sudama Prasad Mahapatra
				288	Private	Unirrigated	0.123	Shyam Kali W/o Lalmani Kamlesh Ramesh Sury Bhan S/o Lalbhan Brahman
				291/1	Private	Paar	0.040	Duiji Widow Ramkhelawan Brijkishor S/o Ramkhelawan Brahman
				292/1/1	Private	Unirrigated	0.104	Brij Kishor S/o Ramkhelawan Brahman
				292/1/2	Private	Unirrigated	0.428	Narayan Pd. S/o Saukhi Lal Brahman
				292/4	Private	Unirrigated	0.305	Chhote Lal S/o Ram Autar Brahman
				293	Private	Unirrigated Par	0.043	Rajendra Singh S/o Ramkhelawan Singh
				294/1	Private	Unirrigated	0.080	Surendra Kumar Aashok Kumar S/o Brijnandan Prasad
				294/2	Private	Unirrigated Neem-1	0.020	Anjani Kumar Singh S/o Guru Prasad Singh Sa. Deh
				294/4/क/2	Private	Unirrigated	0.225	Rajendra Singh S/o Ramkhelawan Singh
				294/4/ख	Private	Unirrigated	0.050	Brijesh Sharma S/o Sudama Prasad Sharma
				84/2	Private	Unirrigated Par	0.028	Ramsiromni S/o Brijlal Mahapatra

				84/3	Private	Unirrigated Par	0.028	Ramprakash S/o Ramasray Mu. Aasha Devi Widow Santosh Kumar Arun Kumar Vipin Kumar Nava S/o Santosh Kumar Vali Mother Aasha Devi Brahman
				77/2	Private	Unirrigated	0.174	Usha D/o Aayoddhya Prasad Brahman
				76/1/ख	Private	Unirrigated	0.022	Rajendra Prasad S/o Badri Prasad Brahman
				76/2/2	Private	Unirrigated Aam-4 Pipal-1	0.146	Girija Prasad S/o Ganga Prasad Brahman
				76/3	Private	Unirrigated	0.154	Ramjit S/o Gajadhar Prasad Brahman
				75/1/1	Private	Unirrigated	0.036	Kallu Prasad S/o Ramkhelawan Brahman
				75/1/2	Private	Unirrigated	0.016	Manoj S/o Ramkhelawan Brahman
				75/2	Private	Unirrigated	0.053	Ratnu Widow Baijnath Ramayan Ranjit S/o Baijnath Brahman
				75/3	Private	Unirrigated	0.040	Ramjit S/o Gajadhar Prasad Brahman
				74/2	Private	Unirrigated	0.044	Usha D/o Aayoddhya Prasad Brahman

[F. No. RW/NH-37014/23/2010-NHDP-IV A]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.